



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262053
CG-DL-E-28032025-262053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 1471]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

का.आ. 1489(अ).— भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ संख्या 1394(अ) दिनांक 30 मई, 2013, का. आ 5249(अ) दिनांक 11 नवंबर, 2022 के साथ पठित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश(ओं) के कॉलम क्रमांक 6(ए) और 6(बी) में निर्दिष्ट का. आ. संख्या और तारीख को अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में निर्दिष्ट मूल्यों को, उक्त सारणी के कॉलम (2) की प्रविष्टि में निर्दिष्ट अनुसूचित फॉर्मूलेशनों, जिनका कॉलम (3) और (4) में संगत प्रविष्टियों में क्रमशः खुराक का रूप एवं प्रबलता और इकाई निर्दिष्ट की गई है, के संबंध में लागू वस्तु और सेवा कर (यदि कोई हो) को छोड़कर, अधिकतम मूल्य के रूप में निर्धारित करता है:—

सारणी

वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई.) @1.74028% वृद्धि के अनुसार मूल्य संशोधन

क्र. सं.	दवाइयां	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (थोक मूल्य सूचकांक सहित 1.74028% की दर से 1.4.2025 से प्रभावी) (रु.)	मौजूदा का. आ. संख्या और दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(ए)	6(बी)
1	5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	8.06	1992(अ)	15-05-2024
2	5-फ्लूरोयूरेसिल	इंजेक्शन 250 मिग्रा/5 मिली	1 मिली	2.08	1547(अ)	26-03-2024
3	6-मकैपटॉप्पूरिन	गोली 50मिग्रा	1 गोली	5.35	1547(अ)	26-03-2024
4	एबाकावीर	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	49.44	1547(अ)	26-03-2024
5	एबाकेविर (ए) + लैमिबुडीन (बी)	गोली 600 मिग्रा (ए) +300 मिग्रा (बी)	1 गोली	73.58	1547(अ)	26-03-2024
6	एसिटोजोलामाइड	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	4.13	1547(अ)	26-03-2024
7	एसिटोजोलामाइड	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	5.14	1547(अ)	26-03-2024
8	एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड	एंद्रिक कोटेड गोली 75 मिग्रा	1 गोली	0.36	1547(अ)	26-03-2024
9	एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड	कन्वेन्शनल / एफफेर्वेसैट / डिस्पेर्सिबल / एंड्रिक कोटेड गोली 150 मिग्रा	1 गोली	0.72	1547(अ)	26-03-2024
10	एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड	कन्वेन्शनल / एफफेर्वेसैट / डिस्पेर्सिबल / एंड्रिक कोटेड गोली 325 मिग्रा	1 गोली	0.68	1547(अ)	26-03-2024
11	एक्टिनोमाइसिन डी	इंजेक्शन के लिए पाउडर 0.5 मिग्रा	1 बायल	336.79	1547(अ)	26-03-2024
12	ऐसीक्लोविर	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	13.90	1547(अ)	26-03-2024
13	ऐसीक्लोविर	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	7.74	1547(अ)	26-03-2024
14	ऐसीक्लोविर	इंजेक्शन के लिए पाउडर 250 मिग्रा	1 बायल	433.82	1547(अ)	26-03-2024
15	ऐसीक्लोविर	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 बायल	537.65	1547(अ)	26-03-2024
16	ऐसीक्लोविर	गोली 800 मिग्रा	1 गोली	38.32	1547(अ)	26-03-2024
17	ऐसीक्लोविर	ओइंटमेंट 3%	1 ग्राम	11.87	1547(अ)	26-03-2024

18	ऐसीक्लोविर	ओरल लिक्विड 400मिग्रा/5मिली (पी)	1 मिली	1.38	1547(अ)	26-03-2024
19	एडेनोसाइन	इंजेक्शन 3मिग्रा/मिली	1 मिली	94.48	1547(अ)	26-03-2024
20	एड्रेनालाईन	इंजेक्शन 1मिग्रा/मिली	1 मिली	12.44	1547(अ)	26-03-2024
21	अल्बेण्डाज़ोल	ओरल लिक्विड 200मिग्रा/5मिली(पी)	1 मिली	1.82	1547(अ)	26-03-2024
22	अल्बेण्डाज़ोल	गोली 400मिग्रा	1 गोली	7.16	1547(अ)	26-03-2024
23	अल्बेण्डाज़ोल	चबाने योग्य गोली 400 मिग्रा	1 गोली	8.27	1547(अ)	26-03-2024
24	एलोप्यूरिनॉल	गोली 300मिग्रा	1 गोली	5.73	1547(अ)	26-03-2024
25	एलोप्यूरिनॉल	गोली 100मिग्रा	1 गोली	1.92	1547(अ)	26-03-2024
26	एल्प्रोस्टाडिल	इंजेक्शन 0.5 मिग्रा/मिली	1 मिली	6213.02	1547(अ)	26-03-2024
27	एमिकासिन	इंजेक्शन 250 मिग्रा/मिली	1 मिली	55.11	1547(अ)	26-03-2024
28	एमियोडैरोन	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	11.71	1547(अ)	26-03-2024
29	एमियोडैरोन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	6.25	1547(अ)	26-03-2024
30	एमियोडैरोन	इंजेक्शन 50 मिग्रा/मिली	1 मिली	21.50	1547(अ)	26-03-2024
31	एमिट्रिप्टिलाइन	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	6.09	1547(अ)	26-03-2024
32	एमिट्रिप्टिलाइन	गोली 75 मिग्रा	1 गोली	5.54	1547(अ)	26-03-2024
33	एमिट्रिप्टिलाइन	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	2.53	1547(अ)	26-03-2024
34	एमिट्रिप्टिलाइन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	2.43	1547(अ)	26-03-2024
35	एम्लोडिपीन	गोली 2.5 मिग्रा	1 गोली	1.82	1547(अ)	26-03-2024
36	एम्लोडिपीन	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	2.54	1547(अ)	26-03-2024
37	एम्लोडिपीन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	5.54	1547(अ)	26-03-2024
38	एमोक्सिसिलिन	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.48	1547(अ)	26-03-2024
39	एमोक्सिसिलिन	कैप्सूल 500 मिग्रा	1 कैप्सूल	7.49	1547(अ)	26-03-2024
40	एमोक्सिसिलिन	ओरल लिक्विड 250 मिग्रा/5 मिली (पी)	1 मिली	1.59	1547(अ)	26-03-2024
41	एमोक्सिसिलिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 250 मिग्रा	1 वायल	25.22	1547(अ)	26-03-2024
42	एमोक्सिसिलिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	55.60	1547(अ)	26-03-2024
43	एमोक्सिसिलिन	ओरल लिक्विड 125 मिग्रा/5 मिली(पी)	1 मिली	1.04	1547(अ)	26-03-2024
44	एमोक्सिसिलिन (ए) + क्लावुलैनिक एसिड (बी)	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1 ग्राम (ए)	1 वायल	144.12	659(अ)	07-02-2025

		+200 मिग्रा (बी)				
45	एमोक्सिसिलिन (ए) + क्लवुलैनिक एसिड (बी)	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500मिग्रा (ए) + 100मिग्रा(बी)	1 वायल	103.11	1547(अ)	26-03-2024
46	एमोक्सिसिलिन (ए) + क्लवुलैनिक एसिड (बी)	ड्राई सिरप 125मिग्रा(ए) + 31.25 (बी)/5मिली(पी)	1 मिली	2.09	1547(अ)	26-03-2024
47	एमोक्सिसिलिन (ए) +क्लैवुलैनिक एसिड (बी)	गोली 500 मिग्रा (ए) + 125 मिग्रा (बी)	1 गोली	18.62	1547(अ)	26-03-2024
48	एमोक्सिसिलिन (ए) +क्लैवुलैनिक एसिड (बी)	ओरल लिक्विड 200 मिग्रा (ए) + 28.5 मिग्रा (बी) / 5 मिली (पी)	1 मिली	2.06	1547(अ)	26-03-2024
49	एम्फोटेरिसिन बी	एम्फोटेरिसिन बी (कन्वेन्शनल) - इंजेक्शन 50 मिग्रा/वायल	1 वायल	231.36	1547(अ)	26-03-2024
50	एम्फोटेरिसिन बी लिपिड	इंजेक्शन 50मिग्रा/ वायल	1 वायल	1920.60	5497(अ)	19-12-2024
51	एम्फोटेरिसिन बी लिपोसोमल	इंजेक्शन 50मिग्रा/ वायल	1 वायल	6763.93	5497(अ)	19-12-2024
52	एम्पीसिलीन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	14.50	1547(अ)	26-03-2024
53	एम्पीसिलीन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1 ग्राम	1 वायल	25.35	1992(अ)	15-05-2024
54	एंटी-रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन	इंजेक्शन 150 आईयू / मिली	1 मिली	3161.67	5497(अ)	19-12-2024
55	एंटी-रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन	इंजेक्शन 300 आईयू / मिली	1 मिली	111.47	5497(अ)	19-12-2024
56	एंटी-टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन	लाइसेंस के अनुसार (250आईयू)	1 वायल	1266.45	5497(अ)	19-12-2024
57	एंटी-टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन	लाइसेंस के अनुसार (500आईयू)	1 वायल	1908.39	5497(अ)	19-12-2024
58	एंटी-टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन	लाइसेंस के अनुसार (1000आईयू)	1 वायल	2730.90	5497(अ)	19-12-2024
59	आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड	इंजेक्शन 1 मिग्रा/मिली	1 मिली	31.07	1547(अ)	26-03-2024
60	आर्टेमीथर (ए) + ल्यूमेफेंट्राइन (बी)	गोली 40 मिग्रा (ए) + 240 मिग्रा (बी)	1 गोली	18.35	1547(अ)	26-03-2024
61	आर्टेमीथर (ए) + ल्यूमेफेंट्रिन (बी)	गोली 80मिग्रा(ए)+480मि	1 गोली	25.95	1547(अ)	26-03-2024

		ग्रा(बी)				
62	आर्टेमीथर (ए) + ल्यूमेफैट्रिन (बी)	गोली 20 मिग्रा (ए) + 120 मिग्रा (बी)	1 गोली	12.87	1547(अ)	26-03-2024
63	आर्टिसुनेट	इंजेक्शन के लिए पाउडर 60 मिग्रा	1 वायल	248.99	1547(अ)	26-03-2024
64	आर्टिसुनेट	इंजेक्शन के लिए पाउडर 120 मिग्रा	1 वायल	462.35	1547(अ)	26-03-2024
65	आर्टिसुनेट (ए) + सल्फाडोक्सिन -पाइरीमेथामाइन (बी)	कॉम्बी पैक (ए+बी) 1 गोली 50 मिग्रा (ए) + 1 गोली (500 मिग्रा + 25 मिग्रा) (बी)	1 कॉम्बी पैक	22.94	1547(अ)	26-03-2024
66	एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी)	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	0.24	1547(अ)	26-03-2024
67	एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी)	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	1.57	5498(अ)	19-12-2024
68	एटाज़ानावीर (ए) + रिटोनावीर(बी)	गोली 300 मिग्रा (ए) + गोली 100 मिग्रा (बी)	1 गोली	101.57	1547(अ)	26-03-2024
69	एटोरवास्टेटिन	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	19.64	1547(अ)	26-03-2024
70	एटोरवास्टेटिन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	12.78	1547(अ)	26-03-2024
71	एटोरवास्टेटिन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	5.06	5498(अ)	19-12-2024
72	एटोरवास्टेटिन	गोली 80 मिग्रा	1 गोली	41.29	1547(अ)	26-03-2024
73	एट्राक्यूरियम	इंजेक्शन 10 मिग्रा/मिली	1 मिली	17.28	1547(अ)	26-03-2024
74	एट्रोपिन	ड्रॉप्स 1%	1 मिली	4.01	1547(अ)	26-03-2024
75	एट्रोपिन	ओइंटमेंट 1%	1 ग्राम	4.79	1547(अ)	26-03-2024
76	एट्रोपिन	इंजेक्शन 0.6 मिग्रा/मिली	1 मिली	6.98	4498(अ)	14-10-2024
77	अज़ैथियोप्रिन	गोली 50मिग्रा	1 गोली	11.46	1547(अ)	26-03-2024
78	अज़ैथियोप्रिन	गोली 25 मिग्रा(पी)	1 गोली	7.37	1547(अ)	26-03-2024
79	अजीथ्रोमाइसिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	208.28	1547(अ)	26-03-2024
80	अजीथ्रोमाइसिन	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	11.87	659(अ)	07-02-2025
81	अजीथ्रोमाइसिन	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	23.98	1547(अ)	26-03-2024
82	अजीथ्रोमाइसिन	ओरल लिक्विड 200 मिग्रा /5 मिली (पी)	1 मिली	3.47	1547(अ)	26-03-2024
83	अजीथ्रोमाइसिन	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	10.80	1547(अ)	26-03-2024
84	अजीथ्रोमाइसिन	गोली 1000 मिग्रा	1 गोली	58.79	1547(अ)	26-03-2024
85	अजीथ्रोमाइसिन	कैप्सूल 500 मिग्रा	1 कैप्सूल	19.36	1547(अ)	26-03-2024
86	बकलोफेन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	16.56	1547(अ)	26-03-2024

87	बकलोफेन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	12.11	1547(अ)	26-03-2024
88	बैक्लोफेन	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	6.48	1547(अ)	26-03-2024
89	बीसीजी वैक्सीन	लाइसेंस के अनुसार	प्रत्येक खुराक (0.10 मिली)	8.15	5497(अ)	19-12-2024
90	बेंडामुस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड	इंजेक्शन 100 मिग्रा/वायल	1 वायल	5032.89	1547(अ)	26-03-2024
91	बेंज़ैथिन बेंज़िलपेनिसिलिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 12 लाख यूनिट	1 वायल	20.15	1547(अ)	26-03-2024
92	बेंज़ैथिन बेंज़िलपेनिसिलिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 6 लाख यूनिट	1 वायल	11.89	1547(अ)	26-03-2024
93	बेंज़ोइल पेरोक्साइड	जेल 2.5%	1 ग्राम	3.68	1547(अ)	26-03-2024
94	बेंज़ोइल पेरोक्साइड	जेल 5%	1 ग्राम	8.11	1547(अ)	26-03-2024
95	बेंज़ोइल पेरोक्साइड	जेल 3.5%	1 ग्राम	10.29	1547(अ)	26-03-2024
96	बीटामेथासोन	इंजेक्शन 4 मिग्रा/मिली	1 मिली	4.82	1547(अ)	26-03-2024
97	बीटामेथासोन वैलेरेट	क्रीम 0.05%	1 ग्राम	0.68	1547(अ)	26-03-2024
98	बीटामेथासोन वैलेरेट	क्रीम 0.1%	1 ग्राम	1.06	1547(अ)	26-03-2024
99	बाईकलुटामाइड	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	44.05	1547(अ)	26-03-2024
100	बिसकाॅडिल	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	1.19	1547(अ)	26-03-2024
101	बिसकाॅडिल	सपोसिटरी 5 मिग्रा	1 सपोसिटरी	10.15	1547(अ)	26-03-2024
102	ब्लीओमाइसिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 15 यूनिट	1 वायल	689.20	1547(अ)	26-03-2024
103	बोर्टेज़ोमिब	इंजेक्शन के लिए पाउडर 2 मिग्रा	1 वायल	5352.05	1547(अ)	26-03-2024
104	बुडेसोनाइड	नेबुलाइजर में उपयोग के लिए रेस्पिरैटर सोल्यूशन 0.5 मिग्रा/मिली	1 मिली	12.11	1547(अ)	26-03-2024
105	बुडेसोनाइड	नेबुलाइजर में उपयोग के लिए रेस्पिरैटर सोल्यूशन 1 मिग्रा/मिली	1 मिली	13.37	1547(अ)	26-03-2024
106	बुडेसोनइड	इनहेलेशन (एमडीआई) 100 एमसीजी/ खुराक	1 मीटर खुराक	1.43	1547(अ)	26-03-2024
107	बुडेसोनइड	इनहेलेशन (एमडीआई) 200 एमसीजी/ खुराक	1 मीटर खुराक	2.07	1547(अ)	26-03-2024
108	बुडेसोनइड	इनहेलेशन (डीपीआई)	1 खुराक	3.39	1547(अ)	26-03-2024

		200 एमसीजी/ खुराक				
109	बुडेसोनाइड	नेज़ल स्प्रे 100 एमसीजी/खुराक	1 खुराक	0.82	1547(अ)	26-03-2024
110	बुडेसोनाइड (ए)+ फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (एमडीआई) 100 एमसीजी (ए) + 6 एमसीजी (बी)	1 मीटर खुराक	2.16	1547(अ)	26-03-2024
111	बुडेसोनाइड (ए)+ फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (डीपीआई) 100 एमसीजी (ए) + 6 एमसीजी (बी)	1 खुराक	4.40	1547(अ)	26-03-2024
112	बुडेसोनाइड (ए)+ फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (डीपीआई) 200 एमसीजी (ए) + 6 एमसीजी (बी)	1 खुराक	5.82	1547(अ)	26-03-2024
113	बुडेसोनाइड (ए)+ फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (डीपीआई) 400 एमसीजी (ए) + 6 एमसीजी (बी)	1 खुराक	7.07	1994(अ)	15-05-2024
114	बुडेसोनाइड (ए) + फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (एमडीआई) 200 एमसीजी (ए) + 6एमसीजी (बी)	1 मीटर खुराक	3.01	5497(अ)	19-12-2024
115	बुडेसोनाइड (ए) + फॉर्मोटेरोल (बी)	इनहेलेशन (एमडीआई) 400एमसीजी (ए) + 6एमसीजी (बी)	1 मीटर खुराक	3.43	5497(अ)	19-12-2024
116	बुपीवेकेन	0.5% इंजेक्शन 7.5% ग्लूकोज के साथ	1 मिली	7.52	1547(अ)	26-03-2024
117	बुपीवेकेन	इंजेक्शन 0.5 %	1 मिली	4.50	1547(अ)	26-03-2024
118	बुपीवेकेन	इंजेक्शन 0.25%	1 मिली	2.88	1547(अ)	26-03-2024
119	ब्यूप्रेनॉरफिन	गोली (सब- लिंगुअल)0.4मिग्रा	1 गोली	9.59	1547(अ)	26-03-2024
120	ब्यूप्रेनॉरफिन (ए) + नालोक्सोन (बी)	गोली (सब-लिंगुअल) 2 मिग्रा(ए)+0.5मिग्रा(बी)	1 गोली	37.62	1547(अ)	26-03-2024
121	ब्यूप्रेनॉरफिन (ए) + नालोक्सोन (बी)	गोली (सब-लिंगुअल) 0.4 मिग्रा(ए)+0.1मिग्रा(बी)	1 गोली	12.03	1547(अ)	26-03-2024
122	कैफीन	ओरल लिक्विड 20 मिग्रा/मिली	1 मिली	249.96	1547(अ)	26-03-2024
123	कैफीन	इंजेक्शन 20 मिग्रा/मिली	1 मिली	254.86	1547(अ)	26-03-2024

124	कैलेमाइन	लोशन (आईपी के अनुसार)	1 मिली	0.97	1547(अ)	26-03-2024
125	कैल्शियम फोलिनेट	गोली 15 मिग्रा	1 गोली	48.37	1547(अ)	26-03-2024
126	कैपेसिटाबाइन	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	114.69	1547(अ)	26-03-2024
127	कार्बमेज़पाइन	मोडिफाईड रिलीज़ - गोली 200 मिग्रा	1 गोली	2.44	1547(अ)	26-03-2024
128	कार्बमेज़पाइन	मोडिफाईड रिलीज़ - गोली 400 मिग्रा	1 गोली	4.74	1547(अ)	26-03-2024
129	कार्बमेज़पाइन	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	3.61	1547(अ)	26-03-2024
130	कार्बमेज़पाइन	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	1.60	1547(अ)	26-03-2024
131	कार्बमेज़पाइन	ओरल लिक्विड 100 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.32	1547(अ)	26-03-2024
132	कार्बमेज़पाइन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	1.09	1547(अ)	26-03-2024
133	कार्बिमाज़ोल	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	4.33	1547(अ)	26-03-2024
134	कार्बिमाज़ोल	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	2.23	1547(अ)	26-03-2024
135	कार्बिमाज़ोल	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	14.11	1547(अ)	26-03-2024
136	कार्बोप्लैटिन	इंजेक्शन 10 मिग्रा/मिली	1 मिली	60.10	1547(अ)	26-03-2024
137	कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोस	ड्रॉप्स 0.5%	1 मिली	12.51	1547(अ)	26-03-2024
138	कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोस	ड्रॉप्स 1%	1 मिली	16.87	1547(अ)	26-03-2024
139	सेफैड्रोक्सिल	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	6.83	4498(अ)	14-10-2024
140	सेफैड्रोक्सिल	ओरल लिक्विड 125मिग्रा / 5 मिली(पी)	1 मिली	0.69	1547(अ)	26-03-2024
141	सेफिक्सिम	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	22.48	1547(अ)	26-03-2024
142	सेफिक्सिम	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	9.95	1547(अ)	26-03-2024
143	सेफिक्सिम	ओरल लिक्विड 50 मिग्रा/5 मिली (पी)	1 मिली	1.66	1547(अ)	26-03-2024
144	सेफिक्सिम	ओरल लिक्विड 100 मिग्रा/ 5 मिली (पी)	1 मिली	2.43	1547(अ)	26-03-2024
145	सेफिक्सिम	कैप्सूल 200 मिग्रा	1 कैप्सूल	14.94	1547(अ)	26-03-2024
146	सेफोटाजाइम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 250 मिग्रा	1 वायल	18.03	1547(अ)	26-03-2024
147	सेफोटाजाइम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	24.80	1547(अ)	26-03-2024
148	सेफोटाजाइम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा	1 वायल	40.66	1547(अ)	26-03-2024
149	सेफ्टाजिडिम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा	1 वायल	230.97	1547(अ)	26-03-2024

150	सेफ्टाजिडिम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 250 मिग्रा	1 वायल	80.45	1547(अ)	26-03-2024
151	सेफिट्रएक्सोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	51.16	1547(अ)	26-03-2024
152	सेफिट्रएक्सोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 250 मिग्रा	1 वायल	28.83	1547(अ)	26-03-2024
153	सेफिट्रएक्सोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा	1 वायल	63.47	1547(अ)	26-03-2024
154	सेफिट्रएक्सोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 2000 मिग्रा	1 वायल	140.52	1547(अ)	26-03-2024
155	सेफुरोक्साइम	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	52.33	1547(अ)	26-03-2024
156	सेफुरोक्साइम	इंजेक्शन 1500 मिग्रा	1 वायल	344.66	1547(अ)	26-03-2024
157	सेफुरोक्साइम	ओरल लिक्विड 125मिग्रा /5मिली (पी)	1 मिली	5.40	1550(अ)	26-03-2024
158	सिट्रीजीन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	1.91	1547(अ)	26-03-2024
159	सिट्रीजीन	ओरल लिक्विड 5मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.67	1547(अ)	26-03-2024
160	क्लोरैम्बुसिल	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	31.70	1547(अ)	26-03-2024
161	क्लोरैम्बुसिल	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	78.55	1547(अ)	26-03-2024
162	क्लोरोक्विन	गोली 150 मिग्रा	1 गोली	1.35	3868(अ)	10-09-2024
163	क्लोरोक्विन	ओरल लिक्विड 50 मिग्रा / 5 मिली	1 मिली	0.35	1547(अ)	26-03-2024
164	कॉलेकैल्सिफेरॉल	गोली 1000 आईयू	1 गोली	4.39	1547(अ)	26-03-2024
165	कॉलेकैल्सिफेरॉल	ओरल लिक्विड 400 आईयू / मिली	1 मिली	2.66	1547(अ)	26-03-2024
166	कॉलेकैल्सिफेरॉल	गोली 60000 आईयू	1 गोली	22.89	1547(अ)	26-03-2024
167	कॉलेकैल्सिफेरॉल	कैप्सूल 60000 आईयू	1 कैप्सूल	31.32	1547(अ)	26-03-2024
168	कॉलेकैल्सिफेरॉल	कैप्सूल 1000 आईयू	1 कैप्सूल	4.98	1547(अ)	26-03-2024
169	कॉलेकैल्सिफेरॉल	सॉलिड ओरल डोज़ फॉर्म 60000 आईयू सैशे/ग्रेन्यूल्स/पाउडर	1 ग्राम	34.57	1547(अ)	26-03-2024
170	कॉलेकैल्सिफेरॉल	सॉलिड ओरल डोज़ फॉर्म 1000 आईयू सैशे/ग्रेन्यूल्स/पाउडर	1 ग्राम	23.54	1547(अ)	26-03-2024
171	सिप्रोफ्लोक्सासिन	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	2.24	1547(अ)	26-03-2024
172	सिप्रोफ्लोक्सासिन	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	4.32	1547(अ)	26-03-2024
173	सिप्रोफ्लोक्सासिन	ड्रॉप्स 0.3%	1 मिली	1.57	1547(अ)	26-03-2024
174	सिप्रोफ्लोक्सासिन	इंजेक्शन 200 मिग्रा / 100मिली	1 मिली	0.20	1547(अ)	26-03-2024

175	सिप्रोफ्लोक्सासिन	ओरल लिक्विड 250 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.75	1547(अ)	26-03-2024
176	सिप्रोफ्लोक्सासिन	ओइंटमेंट 0.3%	1 ग्राम	1.31	1547(अ)	26-03-2024
177	सिस्प्लैटिन	इंजेक्शन 1 मिग्रा / मिली	1 मिली	7.21	1547(अ)	26-03-2024
178	क्लेरिथ्रोमाइसिन	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	24.48	5498(अ)	19-12-2024
179	क्लेरिथ्रोमाइसिन	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	40.53	1547(अ)	26-03-2024
180	क्लेरिथ्रोमाइसिन	ओरल लिक्विड 125 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	4.73	5498(अ)	19-12-2024
181	क्लिंडामाइसिन	कैप्सूल 150 मिग्रा	1 कैप्सूल	16.64	1547(अ)	26-03-2024
182	क्लिंडामाइसिन	कैप्सूल 300 मिग्रा	1 कैप्सूल	28.86	1547(अ)	26-03-2024
183	क्लिंडामाइसिन	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	19.30	1547(अ)	26-03-2024
184	क्लिंडामाइसिन	इंजेक्शन 150 मिग्रा / मिली	1 मिली	61.65	1547(अ)	26-03-2024
185	क्लोबज़म	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	5.83	1547(अ)	26-03-2024
186	क्लोबज़म	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	10.01	1547(अ)	26-03-2024
187	क्लोफ़ाज़िमाइन	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.05	1547(अ)	26-03-2024
188	क्लोफ़ाज़िमाइन	कैप्सूल 50 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.15	1547(अ)	26-03-2024
189	क्लोमीफीन साइट्रेट	कैप्सूल 50 मिग्रा	1 कैप्सूल	27.85	1547(अ)	26-03-2024
190	क्लोमीफीन साइट्रेट	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	52.03	1547(अ)	26-03-2024
191	क्लोमीफेनेसिट्रेट	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	14.19	1547(अ)	26-03-2024
192	क्लोमीफेनेसिट्रेट	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	8.99	1547(अ)	26-03-2024
193	क्लोमिप्रामाइन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	2.90	1547(अ)	26-03-2024
194	क्लोमिप्रामाइन	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	6.33	1547(अ)	26-03-2024
195	क्लोमिप्रामाइन	गोली 75 मिग्रा	1 गोली	16.75	1547(अ)	26-03-2024
196	क्लोनाज़ेपम	गोली 0.25 मिग्रा	1 गोली	2.06	1547(अ)	26-03-2024
197	क्लोनाज़ेपम	गोली 0.5 मिग्रा	1 गोली	3.51	1547(अ)	26-03-2024
198	क्लोनाज़ेपम	गोली 1 मिग्रा	1 गोली	4.85	1547(अ)	26-03-2024
199	क्लोपीडोग्रेल	गोली 75 मिग्रा	1 गोली	6.78	1547(अ)	26-03-2024
200	क्लोपीडोग्रेल	गोली 150 मिग्रा	1 गोली	20.84	1547(अ)	26-03-2024
201	क्लोट्रिमेज़ोल	लोशन 1%	1 मिली	3.96	1547(अ)	26-03-2024
202	क्लोट्रिमेज़ोल	पेसरी 100 मिग्रा	1 पेसरी	10.18	1547(अ)	26-03-2024
203	क्लोट्रिमेज़ोल	ड्रॉप्स 1%	1 मिली	3.43	1547(अ)	26-03-2024
204	क्लोट्रिमेज़ोल	क्रीम 1%	1 ग्राम	3.05	1547(अ)	26-03-2024
205	क्लोक्सासिलिन	कैप्सूल 500 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.42	1992(अ)	15-05-2024
206	क्लोक्सासिलिन	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	1.43	1992(अ)	15-05-2024
207	क्लोज़ापाइन	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	2.83	1547(अ)	26-03-2024

208	क्लोज़ापाइन	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	5.28	1547(अ)	26-03-2024
209	क्लोज़ापाइन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	8.60	1547(अ)	26-03-2024
210	कोल्चिसिन	गोली 0.5 मिग्रा	1 गोली	3.32	1547(अ)	26-03-2024
211	को-ट्रिमोक्साज़ोल [सल्फामेथोक्साज़ोल (ए) + ट्राइमेथोप्रिम (बी)]	गोली 400 मिग्रा (ए) + 80 मिग्रा (बी)	1 गोली	0.92	1547(अ)	26-03-2024
212	को-ट्रिमोक्साज़ोल [सल्फामेथोक्साज़ोल(ए) +ट्राइमेथोप्रिम(बी)]	ओरल लिक्विड 200 मिग्रा (ए) + 40 मिग्रा (बी) / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.36	1547(अ)	26-03-2024
213	को-ट्रिमोक्साज़ोल [सल्फामेथोक्साज़ोल (ए)+ट्राइमेथोप्रिम (बी)]	गोली 800 मिग्रा (ए) + 160 मिग्रा (बी)	1 गोली	2.34	1547(अ)	26-03-2024
214	साईक्लोफॉस्फोमाईड	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	74.76	1547(अ)	26-03-2024
215	साईक्लोफॉस्फोमाईड	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	3.79	1547(अ)	26-03-2024
216	साइक्लोसेरीन	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	60.22	1547(अ)	26-03-2024
217	साइक्लोसेरीन	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	46.81	1547(अ)	26-03-2024
218	साइक्लोस्पोरिन	कैप्सूल 25 मिग्रा	1 कैप्सूल	28.53	1547(अ)	26-03-2024
219	साइक्लोस्पोरिन	ओरल लिक्विड 100 मिग्रा / मिली (पी)	1 मिली	81.98	1547(अ)	26-03-2024
220	साइक्लोस्पोरिन	कैप्सूल 50 मिग्रा	1 कैप्सूल	56.07	1547(अ)	26-03-2024
221	साइक्लोस्पोरिन	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	104.91	1547(अ)	26-03-2024
222	साइटोसिन अरेबिनोसाइड	इंजेक्शन 1000 मिग्रा / वायल	1 वायल	1150.00	1547(अ)	26-03-2024
223	साइटोसिन अरेबिनोसाइड	इंजेक्शन 100मिग्रा / वायल	1 वायल	142.02	1547(अ)	26-03-2024
224	साइटोसिन अरेबिनोसाइड	इंजेक्शन 500 मिग्रा / वायल	1 वायल	545.66	1547(अ)	26-03-2024
225	डैबिगैट्रॉन	कैप्सूल 110 मिग्रा	1 कैप्सूल	32.36	1547(अ)	26-03-2024
226	डैबिगैट्रॉन	कैप्सूल 150 मिग्रा	1 कैप्सूल	36.21	1547(अ)	26-03-2024
227	डैकार्बाज़ीन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 200 मिग्रा	1 वायल	388.39	1547(अ)	26-03-2024
228	डैकार्बाज़ीन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	527.86	1547(अ)	26-03-2024
229	डैक्लाटासविर	गोली 60 मिग्रा	1 गोली	203.45	1547(अ)	26-03-2024
230	डेपसोन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	0.42	1547(अ)	26-03-2024
231	दारुनावीर	गोली 600 मिग्रा	1 गोली	157.13	1547(अ)	26-03-2024
232	दारुनावीर (ए) +रिटोनावीर (बी)	गोली 600 मिग्रा (ए) + 100 मिग्रा (बी)	1 गोली	149.01	1547(अ)	26-03-2024
233	डेसफेरिओक्सामाइन	इंजेक्शन के लिए	1 वायल	287.90	4498(अ)	14-10-2024

		पाउडर 500मिग्रा				
234	डेक्सामेथासोन	गोली 0.5 मिग्रा	1 गोली	0.22	1547(अ)	26-03-2024
235	डेक्सामेथासोन	गोली 4 मिग्रा	1 गोली	4.70	1547(अ)	26-03-2024
236	डेक्सामेथासोन	इंजेक्शन 4 मिग्रा / मिली (2 मिली)	1 मिली	5.18	1547(अ)	26-03-2024
237	डेक्सामेथासोन	इंजेक्शन 4 मिग्रा / मिली (5 मिली)	1 मिली	2.61	1547(अ)	26-03-2024
238	डेक्सामेथासोन	इंजेक्शन 4 मिग्रा / मिली (10 मिली का पैक)	1 मिली	1.60	1547(अ)	26-03-2024
239	डेक्सामेथासोन	इंजेक्शन 4 मिग्रा / मिली (20 मिली का पैक)	1 मिली	1.37	1547(अ)	26-03-2024
240	डेक्सामेथासोन	इंजेक्शन 4 मिग्रा / मिली (30 मिली का पैक)	1 मिली	0.92	1547(अ)	26-03-2024
241	डायजेपाम	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	1.66	1547(अ)	26-03-2024
242	डायजेपाम	इंजेक्शन 5 मिग्रा / मिली	1 मिली	5.64	1547(अ)	26-03-2024
243	डायजेपाम	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	1.47	1547(अ)	26-03-2024
244	डायजेपाम	सपोसिटरी 5 मिग्रा	1 सपोसिटरी	6.30	1547(अ)	26-03-2024
245	डाईक्लोफेनाक	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	2.09	1547(अ)	26-03-2024
246	डाईक्लोफेनाक	इंजेक्शन 25 मिग्रा / मिली	1 मिली	1.72	1547(अ)	26-03-2024
247	डाइसाइक्लोमाइन	इंजेक्शन 10मिग्रा / मिली (10 मिली पैक से कम)	1 मिली	3.38	1547(अ)	26-03-2024
248	डाइसाइक्लोमाइन	इंजेक्शन 10 मिग्रा / मिली (10 मिली और अधिक पैक))	1 मिली	2.14	1547(अ)	26-03-2024
249	डाइएथिलकार्बामेज़िन (डीईसी)	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	1.70	1547(अ)	26-03-2024
250	डाइएथिलकार्बामेज़िन (डीईसी)	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	0.57	1547(अ)	26-03-2024
251	डाइएथिलकार्बामेज़िन (डीईसी)	ओरल लिक्विड 120 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.49	1547(अ)	26-03-2024
252	डायजोक्सिसन	गोली 0.25 मिग्रा	1 गोली	1.35	1547(अ)	26-03-2024
253	डायजोक्सिसन	ओरल लिक्विड 0.05 मिग्रा / मिली	1 मिली	1.50	1547(अ)	26-03-2024
254	डायजोक्सिसन	इंजेक्शन 0.25 मिग्रा / मिली	1 मिली	3.94	1547(अ)	26-03-2024
255	डिल्टियाज़ेम	गोली 60 मिग्रा	1 गोली	5.56	1547(अ)	26-03-2024
256	डिल्टियाज़ेम	गोली 30 मिग्रा	1 गोली	2.73	1547(अ)	26-03-2024

257	डिल्लियाज़ेम	इंजेक्शन 5 मिग्रा / मिली	1 मिली	3.56	1547(अ)	26-03-2024
258	डेनोप्रोस्टोन	जेल 0.5 मिग्रा	1 ग्राम	86.19	1547(अ)	26-03-2024
259	इंसुलिन ग्लार्गिन युक्त डिस्पोजेबल पेन	इंजेक्शन 100 आईयू / मिली	1 मिली	248.39	1547(अ)	26-03-2024
260	डोबुटामाइन	इंजेक्शन 50 मिग्रा / मिली	1 मिली	9.19	1547(अ)	26-03-2024
261	डोसीटेक्सल	इंजेक्शन के लिए पाउडर 20 मिग्रा	1 वायल	2918.31	1547(अ)	26-03-2024
262	डोसीटेक्सल	इंजेक्शन के लिए पाउडर 80 मिग्रा	1 वायल	10513.53	1547(अ)	26-03-2024
263	डोलुटेग्राविर	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	114.75	1547(अ)	26-03-2024
264	डोमपेरिडोन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	2.35	1547(अ)	26-03-2024
265	डोमपेरिडोन	ओरल लिक्विड 1 मिग्रा/मिली	1 मिली	1.26	1547(अ)	26-03-2024
266	डोनेपेजिल	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	17.76	1547(अ)	26-03-2024
267	डोनेपेजिल	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	12.32	1547(अ)	26-03-2024
268	डोपामाइन	इंजेक्शन 40 मिग्रा/मिली	1 मिली	4.85	1547(अ)	26-03-2024
269	डॉक्सोरुबिसिन	इंजेक्शन 2 मिग्रा/मिली	1 मिली	32.30	1547(अ)	26-03-2024
270	डॉक्सीसाइक्लिन	कैप्सूल 100मिग्रा	1 कैप्सूल	3.13	1547(अ)	26-03-2024
271	डॉक्सीसाइक्लिन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	1.24	1547(अ)	26-03-2024
272	डॉक्सीसाइक्लिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 100 मिग्रा	1 वायल	511.39	1547(अ)	26-03-2024
273	डी-पेनीसिलामाइन	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	15.92	1547(अ)	26-03-2024
274	डीपीटी+ हिब+ हेप बी वैक्सीन	लाइसेंस के अनुसार	प्रति 0.1 मिली	76.97	1547(अ)	26-03-2024
275	इफावरेन्ज	गोली 600 मिग्रा	1 गोली	71.82	1547(अ)	26-03-2024
276	इफावरेन्ज	गोली 200 मिग्रा (पी)	1 गोली	22.93	1547(अ)	26-03-2024
277	इफावरेन्ज	कैप्सूल 200 मिग्रा	1 कैप्सूल	22.36	1547(अ)	26-03-2024
278	एनालाप्रिल	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	3.76	1547(अ)	26-03-2024
279	एनालाप्रिल	गोली 2.5 मिग्रा	1 गोली	2.23	1547(अ)	26-03-2024
280	एनोक्सापारिन	इंजेक्शन 40 मिग्रा/0.4मिली, इंजेक्शन 60 मिग्रा/0.6 मिली	प्रति 0.10 मिली	113.94	1547(अ)	26-03-2024
281	एन्टेकाविर	गोली 1 मिग्रा	1 गोली	132.51	1547(अ)	26-03-2024
282	एन्टेकाविर	गोली 0.5 मिग्रा	1 गोली	85.91	1547(अ)	26-03-2024

283	एरिथ्रोपोइटीन	इंजेक्शन 2000 आईयू/मिली	1 मिली	559.14	1547(अ)	26-03-2024
284	एरिथ्रोपोइटीन	इंजेक्शन 10000 आईयू/मिली	1 मिली	2003.38	1547(अ)	26-03-2024
285	एस्सिटालोप्राम	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	5.11	1547(अ)	26-03-2024
286	एस्सिटालोप्राम	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	9.16	1547(अ)	26-03-2024
287	एस्सिटालोप्राम	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	14.61	1547(अ)	26-03-2024
288	एस्मोलोल	इंजेक्शन 10 मिग्रा/मिली	1 मिली	26.84	1547(अ)	26-03-2024
289	एथेमब्युटोल	गोली 600 मिग्रा	1 गोली	4.15	1547(अ)	26-03-2024
290	एथेमब्युटोल	गोली 800 मिग्रा	1 गोली	5.05	1547(अ)	26-03-2024
291	एथेमब्युटोल	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	2.66	1547(अ)	26-03-2024
292	एथेमब्युटोल	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	1.16	1547(अ)	26-03-2024
293	एथिनिलएस्ट्राडियोल (ए)+ लेवोनोर्गैस्ट्रेल (बी)	गोली 0.03 मिग्रा (ए) + गोली 0.15 मिग्रा (बी)	1 गोली	3.23	1547(अ)	26-03-2024
294	इथियोनामाइड	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	15.07	1547(अ)	26-03-2024
295	एटोपोसाइड	कैप्सूल 50 मिग्रा	1 कैप्सूल	57.62	1547(अ)	26-03-2024
296	एटोपोसाइड	इंजेक्शन 20 मिग्रा/मिली	1 मिली	35.11	1547(अ)	26-03-2024
297	फेंटानिल	इंजेक्शन 50 एमसीजी/मिली	1 मिली	21.32	1547(अ)	26-03-2024
298	फिलग्रास्टिम	इंजेक्शन 300 एमसीजी	1 वायल	1180.16	1547(अ)	26-03-2024
299	फ्लुकोनाज़ोल	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	30.27	1547(अ)	26-03-2024
300	फ्लुकोनाज़ोल	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	17.76	1547(अ)	26-03-2024
301	फ्लुकोनाज़ोल	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	7.75	1547(अ)	26-03-2024
302	फ्लुकोनाज़ोल	गोली 150 मिग्रा	1 गोली	12.27	1547(अ)	26-03-2024
303	फ्लुकोनाज़ोल	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	9.85	1547(अ)	26-03-2024
304	फ्लुकोनाज़ोल	कैप्सूल 200 मिग्रा	1 कैप्सूल	40.81	1547(अ)	26-03-2024
305	फ्लुकोनाज़ोल	कैप्सूल 150 मिग्रा	1 कैप्सूल	19.55	1547(अ)	26-03-2024
306	फ्लुकोनाज़ोल	इंजेक्शन 200 मिग्रा/100मिली	प्रति 100 मिली वायल	93.94	1547(अ)	26-03-2024
307	फ्लुकोनाज़ोल	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	21.77	1547(अ)	26-03-2024
308	फ्लूड्रोकोर्टिसोन	गोली 0.1 मिग्रा	1 गोली	13.43	1547(अ)	26-03-2024
309	फ्लूनारिज़िन	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	2.52	1547(अ)	26-03-2024
310	फ्लूनारिज़िन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	4.90	1547(अ)	26-03-2024
311	फ्लुक्सोटाइन	कैप्सूल 20 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.06	1547(अ)	26-03-2024
312	फ्लुक्सोटाइन	कैप्सूल 60 मिग्रा	1 कैप्सूल	11.29	1547(अ)	26-03-2024

313	फ्लुक्सोटाइन	कैप्सूल 40 मिग्रा	1 कैप्सूल	6.60	1547(अ)	26-03-2024
314	फ्लुक्सोटाइन	कैप्सूल 10 मिग्रा	1 कैप्सूल	3.38	1547(अ)	26-03-2024
315	फ्लुक्सोटाइन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	2.83	1547(अ)	26-03-2024
316	फ्लुक्सोटाइन	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	5.66	1547(अ)	26-03-2024
317	फ्लुक्सोटाइन	गोली 60 मिग्रा	1 गोली	8.39	1547(अ)	26-03-2024
318	फ्लुक्सोटाइन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	4.22	1547(अ)	26-03-2024
319	फ्लूफेनाज़ीन	इंजेक्शन 25 मिग्रा/मिली	1 मिली	56.22	1547(अ)	26-03-2024
320	फोलिक एसिड	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	1.54	1547(अ)	26-03-2024
321	फोलिक एसिड	कैप्सूल 5 मिग्रा	1 कैप्सूल	5.13	1547(अ)	26-03-2024
322	फ्रैमाइसेटिन	क्रीम 1 %	1 ग्राम	1.69	1547(अ)	26-03-2024
323	फुरेसेमाइड	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	0.93	1547(अ)	26-03-2024
324	फुरेसेमाइड	इंजेक्शन 10 मिग्रा/मिली	1 मिली	3.04	1547(अ)	26-03-2024
325	फुरेसेमाइड	ओरल लिक्विड 10 मिग्रा/मिली	1 मिली	3.38	1547(अ)	26-03-2024
326	फ्यूसिडिक एसिड	क्रीम 2 %	1 ग्राम	10.00	1547(अ)	26-03-2024
327	गेफिटिनिब	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	241.27	1547(अ)	26-03-2024
328	जेमसीटाबाइन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा	1 वायल	5689.88	1547(अ)	26-03-2024
329	जेमसीटाबाइन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 200 मिग्रा	1 वायल	1322.42	1547(अ)	26-03-2024
330	जेंटामाइसिन	इंजेक्शन 40 मिग्रा/मिली (1.5 मिली)	1 मिली	2.95	1547(अ)	26-03-2024
331	जेंटामाइसिन	इंजेक्शन 10 मिग्रा/मिली	1 मिली	2.45	1547(अ)	26-03-2024
332	जेंटामाइसिन	इंजेक्शन 40 मिग्रा/मिली (10 मिली का पैक)	1 मिली	1.54	1547(अ)	26-03-2024
333	जेंटामाइसिन	इंजेक्शन 40 मिग्रा/मिली (20 मिली का पैक)	1 मिली	1.58	1547(अ)	26-03-2024
334	जेंटामाइसिन	इंजेक्शन 40 मिग्रा/मिली (30 मिली का पैक)	1 मिली	1.25	1547(अ)	26-03-2024
335	जेंटामाइसिन	इंजेक्शन 40 मिग्रा/मिली (2 मिली)	1 मिली	4.93	1547(अ)	26-03-2024
336	ग्लिमेपिराइड	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	5.90	1547(अ)	26-03-2024
337	ग्लिमेपिराइड	गोली 1 मिग्रा	1 गोली	3.76	1547(अ)	26-03-2024

338	ग्लूकोज़	इंजेक्शन 25%	1 मिली	0.20	1547(अ)	26-03-2024
339	ग्लिसरीन/ग्लिसरोल (जैसा कि आईपी में उल्लेख किया गया है)	टॉपिकल - लोशन	1 मिली	1.25	1547(अ)	26-03-2024
340	ग्लिसरीन/ग्लिसरोल (जैसा कि आईपी में उल्लेख किया गया है)	टॉपिकल - क्रीम	1 ग्राम	2.41	1547(अ)	26-03-2024
341	ग्लिसेरिल ट्राइनाइट्रेट	इंजेक्शन 5 मिग्रा/मिली	1 मिली	6.30	1547(अ)	26-03-2024
342	ग्लिसेरिल ट्राइनाइट्रेट	सब्लिंगुअल गोली 0.5 मिग्रा	1 गोली	1.29	1547(अ)	26-03-2024
343	ग्लाइकोपाइरोलेट	इंजेक्शन 0.2 मिग्रा/मिली	1 मिली	14.78	1547(अ)	26-03-2024
344	ग्रेसेफुल्विन	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	1.80	1547(अ)	26-03-2024
345	हैलोपेरीडोल	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	3.63	1547(अ)	26-03-2024
346	हैलोपेरीडोल	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	4.86	1547(अ)	26-03-2024
347	हैलोपेरीडोल	ओरल लिक्विड 2 मिग्रा/5मिली	1 मिली	2.28	1547(अ)	26-03-2024
348	हैलोपेरीडोल	इंजेक्शन 5 मिग्रा/मिली	1 मिली	6.62	1547(अ)	26-03-2024
349	हैलोपेरीडोल	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	5.45	1547(अ)	26-03-2024
350	हैलोपेरीडोल	गोली 1.5 मिग्रा	1 गोली	1.61	1547(अ)	26-03-2024
351	हैलोथेन	लिक्विड फॉर इनहेलेशन	1 मिली	6.21	1547(अ)	26-03-2024
352	हेपरिन	इंजेक्शन 1000 आईयू/मिली	1 मिली	21.58	1547(अ)	26-03-2024
353	हेपरिन	इंजेक्शन 5000 आईयू/मिली	1 मिली	61.00	1547(अ)	26-03-2024
354	हेपेटाइस बी इम्युनोग्लोबुलिन	लाइसेंस के अनुसार	1 वायल	5594.39	1547(अ)	26-03-2024
355	हेपेटाइस बी का टीका	लाइसेंस के अनुसार	1 मिली	80.19	1547(अ)	26-03-2024
356	होमाट्रोपाइन	ड्रॉप्स 2%	1 मिली	6.51	1547(अ)	26-03-2024
357	हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी	इसमें 52 मिग्रा लेवोनोर्गेस्ट्रेल होता है	1 आईयूडी	4174.94	1547(अ)	26-03-2024
358	ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो ट्रोपिन	इंजेक्शन 5000 आईयू	1 वायल	424.74	1547(अ)	26-03-2024
359	ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो ट्रोपिन	इंजेक्शन 10000 आईयू	1 वायल	944.46	1547(अ)	26-03-2024
360	ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो ट्रोपिन	इंजेक्शन 2000 आईयू	1 वायल	349.64	1547(अ)	26-03-2024
361	हाइड्रोक्लोरोथियाजिड	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	1.78	1547(अ)	26-03-2024
362	हाइड्रोक्लोरोथियाजिड	गोली 12.5 मिग्रा	1 गोली	1.06	1547(अ)	26-03-2024

363	हाइड्रोकार्टिसोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 100 मिग्रा	1 वायल	45.57	1547(अ)	26-03-2024
364	हाइड्रोकार्टिसोन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	6.82	1547(अ)	26-03-2024
365	हाइड्रोकार्टिसोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 200 मिग्रा	1 वायल	66.74	1547(अ)	26-03-2024
366	हाइड्रोकार्टिसोन	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	3.17	1547(अ)	26-03-2024
367	हाइड्रोकार्टिसोन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	15.15	1547(अ)	26-03-2024
368	हायड्रोक्सीप्रोपायल मिथायलसेलुलॉज	इंजेक्शन 2%	1 मिली	29.72	1547(अ)	26-03-2024
369	हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	14.04	1547(अ)	26-03-2024
370	हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	6.47	1547(अ)	26-03-2024
371	हाइड्रोक्सीयूरिया	कैप्सूल 500 मिग्रा	1 कैप्सूल	12.33	1547(अ)	26-03-2024
372	हायोसाइन ब्यूटिलब्रोमाइड	इंजेक्शन 20 मिग्रा/मिली	1 मिली	11.44	1547(अ)	26-03-2024
373	आइबुप्रोफेन	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	0.72	1547(अ)	26-03-2024
374	आइबुप्रोफेन	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	1.22	1547(अ)	26-03-2024
375	आइबुप्रोफेन	ओरल लिक्विड 100 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.22	1547(अ)	26-03-2024
376	आइफॉसफामाइड	इंजेक्शन के लिए पाउडर 2000 मिग्रा	1 वायल	654.35	1547(अ)	26-03-2024
377	आइफॉसफामाइड	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा	1 वायल	324.51	1547(अ)	26-03-2024
378	इमैटिनिब	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	70.96	1547(अ)	26-03-2024
379	इमैटिनिब	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	203.09	1547(अ)	26-03-2024
380	इमैटिनिब	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	74.76	1547(अ)	26-03-2024
381	इंसुलिन (घुलनशील)	इंजेक्शन 40 आईयू / मिली	1 मिली	17.29	1547(अ)	26-03-2024
382	इंसुलिन ग्लार्गाइन	इंजेक्शन 100 आईयू / मिली	1 मिली	207.00	1547(अ)	26-03-2024
383	इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग (एनपीएच)	इंजेक्शन 40 आईयू / मिली	1 मिली	17.29	1547(अ)	26-03-2024
384	आयोहेक्सोल	इंजेक्शन 300 मिग्रा आयोडीन / मिली	1 मिली	17.19	1547(अ)	26-03-2024
385	आयोहेक्सोल	इंजेक्शन 350 मिग्रा आयोडीन / मिली	1 मिली	14.49	1547(अ)	26-03-2024
386	इरिनोटेकन एचसीएलट्राइहाइड्रेट	इंजेक्शन के लिए लिक्विड 20मिग्रा / मिली	1 मिली	981.68	1547(अ)	26-03-2024
387	आयरन सुक्रोज	इंजेक्शन 20मिग्रा / मिली	1 मिली	58.41	1547(अ)	26-03-2024

388	आइसोफ्लुरेन	लिक्विड फॉर इनहेलेशन	1 मिली	9.82	1547(अ)	26-03-2024
389	आइसोनियाज़िड	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	1.31	1547(अ)	26-03-2024
390	आइसोनियाज़िड	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	0.74	1993(अ)	15-05-2024
391	आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	0.83	1547(अ)	26-03-2024
392	आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	0.82	1547(अ)	26-03-2024
393	इस्पाधुला	ग्रेनुएल्स / हस्क / पाउडर	1 ग्राम	0.96	1547(अ)	26-03-2024
394	इट्राकोनाजोल	ओरल लिक्विड 10 मिग्रा / मिली	1 मिली	5.03	1547(अ)	26-03-2024
395	इट्राकोनाजोल	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	16.96	1547(अ)	26-03-2024
396	इट्राकोनाजोल	कैप्सूल 200 मिग्रा	1 कैप्सूल	22.50	1547(अ)	26-03-2024
397	कॉपर युक्त आईयूडी	लाइसेंस के अनुसार	1 आईयूडी	285.91	1547(अ)	26-03-2024
398	आइवरमेक्टिन	गोली 6 मिग्रा	1 गोली	21.96	1547(अ)	26-03-2024
399	आइवरमेक्टिन	गोली 12 मिग्रा	1 गोली	38.02	1547(अ)	26-03-2024
400	जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन	लाइसेंस के अनुसार (4 एमसीजी से 6 एमसीजी)	1 वायल	688.95	1547(अ)	26-03-2024
401	जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन	लाइसेंस के अनुसार (3 एमसीजी तक)	1 वायल	527.69	1547(अ)	26-03-2024
402	केटामइन	इंजेक्शन 50 मिग्रा / मिली	1 मिली	12.33	1547(अ)	26-03-2024
403	लेबेटालोल	इंजेक्शन 5 मिग्रा / मिली	1 मिली	50.85	1547(अ)	26-03-2024
404	लेबेटालोल	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	15.42	1547(अ)	26-03-2024
405	लैक्टुलोज़	ओरल लिक्विड 10 ग्राम/15 मिली	1 मिली	1.25	1547(अ)	26-03-2024
406	लैमीवुडीन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	11.26	3216(अ)	08-08-2024
407	लैमीवुडीन	गोली 150 मिग्रा	1 गोली	11.05	1547(अ)	26-03-2024
408	एल- ऐस्पैरजाइनेस	इंजेक्शन के लिए पाउडर 5000 केयू	1 वायल	1052.89	1547(अ)	26-03-2024
409	एल- ऐस्पैरजाइनेस	इंजेक्शन के लिए पाउडर 10000 केयू	1 वायल	1737.46	1547(अ)	26-03-2024
410	लटानोप्रोस्ट	ड्रॉप्स 0.005%	1 मिली	236.63	1547(अ)	26-03-2024
411	लेनालिडोमाइड	कैप्सूल 5 मिग्रा	1 कैप्सूल	68.42	1547(अ)	26-03-2024
412	लेनालिडोमाइड	कैप्सूल 25 मिग्रा	1 कैप्सूल	297.37	1547(अ)	26-03-2024
413	लेट्रोजोल	गोली 2.5 मिग्रा	1 गोली	29.83	1547(अ)	26-03-2024
414	ल्यूप्रोलाइड एसीटेट	इंजेक्शन के लिए पाउडर 22.5 मिग्रा	1 वायल	17378.77	1547(अ)	26-03-2024

415	ल्यूप्रोलाइड एसीटेट	इंजेक्शन के लिए पाउडर 11.25 मिग्रा	1 बायल	9456.23	1547(अ)	26-03-2024
416	ल्यूप्रोलाइड एसीटेट	इंजेक्शन के लिए पाउडर 3.75 मिग्रा	1 बायल	3166.84	1547(अ)	26-03-2024
417	लेवेटिरेसेटम	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	6.41	1547(अ)	26-03-2024
418	लेवेटिरेसेटम	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	13.21	1547(अ)	26-03-2024
419	लेवेटिरेसेटम	मोडीफाईड रिलीज़ गोली 750 मिग्रा	1 गोली	18.62	1547(अ)	26-03-2024
420	लेवेटिरेसेटम	गोली 750 मिग्रा	1 गोली	19.68	1547(अ)	26-03-2024
421	लेवेटिरेसेटम	ओरल लिक्विड 100 मिग्रा / मिली (पी)	1 मिली	4.04	1547(अ)	26-03-2024
422	लेवेटिरेसेटम	इंजेक्शन 100 मिग्रा / मिली	1 मिली	23.42	1547(अ)	26-03-2024
423	लेवोडोपा (ए) + कार्बिडोपा (बी)	मोडीफाईड रिलीज़- गोली 200 मिग्रा (ए) + 50 मिग्रा (बी)	1 गोली	4.81	1547(अ)	26-03-2024
424	लेवोडोपा (ए) +कार्बिडोपा(बी)	गोली 100 मिग्रा (ए) + 25 मिग्रा (बी)	1 गोली	2.62	1547(अ)	26-03-2024
425	लेवोडोपा (ए) +कार्बिडोपा(बी)	गोली 100 मिग्रा (ए) + 10 मिग्रा (बी)	1 गोली	1.79	1547(अ)	26-03-2024
426	लेवोडोपा (ए) +कार्बिडोपा(बी)	गोली 250 मिग्रा (ए) +25 मिग्रा (बी)	1 गोली	4.50	1547(अ)	26-03-2024
427	लेवोडोपा (ए) +कार्बिडोपा(बी)	मोडीफाईड रिलीज़- गोली 100 मिग्रा (ए) + 25 मिग्रा (बी)	1 गोली	2.84	1547(अ)	26-03-2024
428	लिवोफ़्लॉक्सासिन	गोली 750 मिग्रा	1 गोली	12.67	1547(अ)	26-03-2024
429	लिवोफ़्लॉक्सासिन	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	4.90	1547(अ)	26-03-2024
430	लिवोफ़्लॉक्सासिन	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	9.15	1547(अ)	26-03-2024
431	लेवोनोर्गेस्ट्रेल	गोली 1.5 मिग्रा	1 गोली	76.66	1547(अ)	26-03-2024
432	लेवोथायरोक्सिन	गोली 50 एमसीजी	1 गोली	1.05	1547(अ)	26-03-2024
433	लेवोथायरोक्सिन	गोली 75 एमसीजी	1 गोली	1.47	1547(अ)	26-03-2024
434	लेवोथायरोक्सिन	गोली 88 एमसीजी	1 गोली	1.68	1547(अ)	26-03-2024
435	लेवोथायरोक्सिन	गोली 112 एमसीजी	1 गोली	1.69	1547(अ)	26-03-2024
436	लेवोथायरोक्सिन	गोली 25 एमसीजी	1 गोली	1.48	1547(अ)	26-03-2024
437	लेवोथायरोक्सिन	गोली 62.5 एमसीजी	1 गोली	1.64	1547(अ)	26-03-2024
438	लेवोथायरोक्सिन	गोली 12.5 एमसीजी	1 गोली	1.51	1547(अ)	26-03-2024
439	लेवोथायरोक्सिन	गोली 100 एमसीजी	1 गोली	1.34	1547(अ)	26-03-2024
440	लेवोथायरोक्सिन	गोली 125 एमसीजी	1 गोली	1.72	1547(अ)	26-03-2024
441	लेवोथायरोक्सिन	गोली 150 एमसीजी	1 गोली	1.73	1547(अ)	26-03-2024

442	लियोग्रोकैन	टोपिकल फॉर्म 2-5 %	1 ग्राम/मिली	1.10	5498(अ)	19-12-2024
443	लियोग्रोकैन	इंजेक्शन 2%	1 मिली	1.16	5498(अ)	19-12-2024
444	लियोग्रोकैन	इंजेक्शन 1%	1 मिली	9.02	1547(अ)	26-03-2024
445	लियोग्रोकैन	7.5% ग्लूकोज के साथ 5% इंजेक्शन	1 मिली	3.56	1547(अ)	26-03-2024
446	लियोग्रोकैन (ए) + एड्रेनालाईन (बी)	इंजेक्शन 2% (ए)+1:200000 (5 एमसीजी / मिली) (बी)	1 मिली	1.07	1547(अ)	26-03-2024
447	लिनेज़ोलिड	गोली 600 मिग्रा	1 गोली	36.29	1547(अ)	26-03-2024
448	लिनेज़ोलिड	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	23.04	1547(अ)	26-03-2024
449	लिथियम	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	2.49	4498(अ)	14-10-2024
450	लोपेरमाइड	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	2.32	1547(अ)	26-03-2024
451	लोपेरमाइड	कैप्सूल 2 मिग्रा	1 कैप्सूल	3.86	1547(अ)	26-03-2024
452	लोपिनाविर (ए) + रिटोनावीर (बी)	गोली 200 मिग्रा (ए) + 50 मिग्रा (बी)	1 गोली	48.80	1547(अ)	26-03-2024
453	लोरजेपेम	गोली 1 मिग्रा	1 गोली	2.35	1547(अ)	26-03-2024
454	लोरजेपेम	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	2.86	1547(अ)	26-03-2024
455	लोरजेपेम	इंजेक्शन 2 मिग्रा / मिली	1 मिली	8.24	1547(अ)	26-03-2024
456	मैगनीशियम सल्फेट	इंजेक्शन 500 मिग्रा / मिली	1 मिली	4.95	1547(अ)	26-03-2024
457	मैनिटोल	इंजेक्शन 20%	1 मिली	0.36	1547(अ)	26-03-2024
458	मैनिटोल	इंजेक्शन 10%	1 मिली	0.19	1547(अ)	26-03-2024
459	खसरा रूबेला वैक्सीन	लाइसेंस के अनुसार	प्रत्येक वायल 0.5मिली	72.43	5497(अ)	19-12-2024
460	खसरा का टीका	लाइसेंस के अनुसार	प्रत्येक वायल 0.5मिली	51.07	5497(अ)	19-12-2024
461	मेबेन्डाजोल	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	2.95	1547(अ)	26-03-2024
462	मेबेन्डाजोल	ओरल लिक्विड 100मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.85	1547(अ)	26-03-2024
463	मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	6.36	1547(अ)	26-03-2024
464	मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट	इंजेक्शन 150 मिग्रा/मिली	1 मिली	294.81	1547(अ)	26-03-2024
465	मेफेनामिक एसिड	ओरल लिक्विड 100 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.57	1547(अ)	26-03-2024
466	मेफेनामिक एसिड	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	2.15	1547(अ)	26-03-2024
467	मेफ्लोक्वीन	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	53.07	1547(अ)	26-03-2024

468	मेग्लुमिन डायट्रिज़ोएट	इंजेक्शन 60% डबल्यू/वी	1 मिली	9.63	1547(अ)	26-03-2024
469	मेग्लुमिन डायट्रिज़ोएट	इंजेक्शन 76% डबल्यू/वी	1 मिली	10.38	1547(अ)	26-03-2024
470	मेलफ़लान	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	92.93	1547(अ)	26-03-2024
471	मेलफ़लान	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	87.54	1547(अ)	26-03-2024
472	मेरोपेनेम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा (ट्राइहाइड्रेट के रूप में)	1 वायल	735.60	1547(अ)	26-03-2024
473	मेरोपेनेम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा (ट्राइहाइड्रेट के रूप में)	1 वायल	969.32	1547(अ)	26-03-2024
474	मेन्ना	इंजेक्शन 100 मिग्रा/मिली	1 मिली	15.78	1547(अ)	26-03-2024
475	मेटफोर्मिन	गोली 1000 मिग्रा	1 गोली	3.55	1547(अ)	26-03-2024
476	मेटफोर्मिन	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	2.06	1547(अ)	26-03-2024
477	मेटफोर्मिन	मोडीफाईड रिलीज़ गोली 1000 मिग्रा	1 गोली	4.12	1547(अ)	26-03-2024
478	मेथोट्रेक्सट	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	13.52	1547(अ)	26-03-2024
479	मेथोट्रेक्सट	गोली 2.5 मिग्रा	1 गोली	5.40	1547(अ)	26-03-2024
480	मेथोट्रेक्सट	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	9.59	1547(अ)	26-03-2024
481	मीथाइलएर्गोमेट्रीन	गोली 0.125 मिग्रा	1 गोली	9.10	1547(अ)	26-03-2024
482	मीथाइलएर्गोमेट्रीन	इंजेक्शन 0.2 मिग्रा / मिली	1 मिली	15.21	1547(अ)	26-03-2024
483	मीथाइलप्रेडनीसोलन	इंजेक्शन 40 मिग्रा / मिली	1 मिली	46.46	1547(अ)	26-03-2024
484	मेटोक्लोप्रामाइड	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	1.37	1547(अ)	26-03-2024
485	मेटोक्लोप्रामाइड	इंजेक्शन 5 मिग्रा / मिली (10 मिली पैक से कम)	1 मिली	2.72	1547(अ)	26-03-2024
486	मेटोक्लोप्रामाइड	इंजेक्शन 5 मिग्रा / मिली (10 मिली और अधिक पैक)	1 मिली	1.66	1547(अ)	26-03-2024
487	मेटोक्लोप्रामाइड	ओरल लिक्विड 5 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.51	1547(अ)	26-03-2024
488	मेटोप्रोलोल	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	4.32	3216(अ)	08-08-2024
489	मेटोप्रोलोल	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	5.94	1547(अ)	26-03-2024
490	मेटोप्रोलोल	मोडीफाईड रिलीज़ गोली 100 मिग्रा	1 गोली	15.25	1547(अ)	26-03-2024
491	मेटोप्रोलोल	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	11.32	1547(अ)	26-03-2024

492	मेटोप्रोलोल	कैप्सूल 25 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.21	1547(अ)	26-03-2024
493	मेटोप्रोलोल	कैप्सूल 50 मिग्रा	1 कैप्सूल	5.92	1547(अ)	26-03-2024
494	मेटोप्रोलोल	इंजेक्शन 1 मिग्रा / मिली	1 मिली	3.46	1547(अ)	26-03-2024
495	मेट्रोनिडाजोल	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	0.83	1547(अ)	26-03-2024
496	मेट्रोनिडाजोल	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	1.55	1547(अ)	26-03-2024
497	मेट्रोनिडाजोल	इंजेक्शन 500 मिग्रा / 100 मिली	1 मिली	0.21	1547(अ)	26-03-2024
498	मेट्रोनिडाजोल	ओरल लिक्विड 200 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.53	1547(अ)	26-03-2024
499	मिडाजोलम	नेज़ल स्प्रे 1.25 मिग्रा / एक्चुएशन	1 मिली	220.59	1547(अ)	26-03-2024
500	मिडाजोलम	नेज़ल स्प्रे 0.5 मिग्रा/ एक्चुएशन	1 मिली	81.32	1547(अ)	26-03-2024
501	मिडाजोलम	इंजेक्शन 1 मिग्रा / मिली	1 मिली	6.02	1547(अ)	26-03-2024
502	मिडाजोलम	इंजेक्शन 5 मिग्रा / मिली	1 मिली	11.07	1547(अ)	26-03-2024
503	मिफेप्रिस्टोन	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	357.03	1547(अ)	26-03-2024
504	मिसोप्रोस्टॉल	गोली 200 एमसीजी	1 गोली	19.30	1547(अ)	26-03-2024
505	मिसोप्रोस्टॉल	गोली 100 एमसीजी	1 गोली	10.09	1547(अ)	26-03-2024
506	मोण्टेलुकस्ट	गोली 4 मिग्रा	1 गोली	10.41	3216(अ)	08-08-2024
507	मोण्टेलुकस्ट	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	16.73	1547(अ)	26-03-2024
508	मोंटेलुकास्ट	गोली 5 मिग्रा (चबाने योग्य गोली सहित)	1 गोली	12.22	1550(अ)	26-03-2024
509	मोरफीन	इंजेक्शन 10 मिग्रा / मिली	1 मिली	19.94	1547(अ)	26-03-2024
510	मोरफीन	इंजेक्शन 15 मिग्रा / मिली	1 मिली	15.19	1547(अ)	26-03-2024
511	मोक्सीफ्लोक्सासिन	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	26.27	1547(अ)	26-03-2024
512	म्यूपिरोसिन	ओइंटमेंट 2%	1 ग्राम	20.64	1547(अ)	26-03-2024
513	माइकोफेनोलेट मोफेटिल	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	50.46	1547(अ)	26-03-2024
514	माइकोफेनोलेट मोफेटिल	गोली 500मिग्रा	1 गोली	75.89	1550(अ)	26-03-2024
515	एन- एसिटाइलसिस्टीन	इंजेक्शन 200 मिग्रा / मिली	1 मिली	24.05	1547(अ)	26-03-2024
516	नालोक्सोन	इंजेक्शन 0.4 मिग्रा / मिली	1 मिली	94.34	1547(अ)	26-03-2024
517	नैटामाइसिन	ड्रॉप्स 5%	1 मिली	23.79	1547(अ)	26-03-2024
518	नियोस्टिग्माइन	इंजेक्शन 0.5 मिग्रा /	1 मिली	5.10	1547(अ)	26-03-2024

		मिली				
519	नियोस्टिग्माइन	गोली 15 मिग्रा	1 गोली	4.67	1547(अ)	26-03-2024
520	नेविरेपीन	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	16.07	1547(अ)	26-03-2024
521	निकोटीन (निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए)	लोज़ेंज 2 मिग्रा	1 लोजेंजेस	8.06	1547(अ)	26-03-2024
522	निकोटीन (निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए)	गम 2 मिग्रा	1 गम	8.74	1547(अ)	26-03-2024
523	निकोटीन (निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए)	गम 4 मिग्रा	1 गम	10.83	1547(अ)	26-03-2024
524	निकोटीन (निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए)	लोज़ेंज 4 मिग्रा	1 लोजेंजेस	9.92	1547(अ)	26-03-2024
525	निकोटीन (निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए)	ओरल डोजेज फॉर्म 2 मिग्रा पास्टिल	1 पास्टिल	7.24	1547(अ)	26-03-2024
526	निकोटीन (निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए)	ओरल डोजेज फॉर्म 4 मिग्रा पास्टिल	1 पास्टिल	7.97	1547(अ)	26-03-2024
527	निफेडीपाइन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	1.57	1547(अ)	26-03-2024
528	निफेडीपाइन	कैप्सूल 10 मिग्रा	1 कैप्सूल	0.97	1547(अ)	26-03-2024
529	नाइट्रोफ्यूरन्टाइन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	8.25	1547(अ)	26-03-2024
530	नाइट्रोफ्यूरन्टाइन	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	8.79	1547(अ)	26-03-2024
531	नाइट्रोफ्यूरन्टाइन	ओरल लिक्विड 25 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.91	1547(अ)	26-03-2024
532	नाइट्रस ऑक्साइड	चिकित्सा प्रयोजन के लिए लाइसेंस के अनुसार	1 क्यूबिक मीटर	290.96	1547(अ)	26-03-2024
533	नोराडेनालाइन	इंजेक्शन 2 मिग्रा / मिली	1 मिली	20.52	1547(अ)	26-03-2024
534	नॉरथीस्टेरॉन	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	5.48	1547(अ)	26-03-2024
535	ओमेप्राजोल	कैप्सूल 20 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.92	1547(अ)	26-03-2024
536	ओमेप्राजोल	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	4.42	1547(अ)	26-03-2024
537	ओमेप्राजोल	कैप्सूल 10 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.45	1547(अ)	26-03-2024
538	ओमेप्राजोल	ओरल लिक्विड के लिए पाउडर 20 मिग्रा	1 ग्राम	1.54	1547(अ)	26-03-2024
539	ओमेप्राजोल	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	8.60	1547(अ)	26-03-2024
540	ओमेप्राजोल	कैप्सूल 40 मिग्रा	1 कैप्सूल	5.77	1547(अ)	26-03-2024
541	ऑडान्सेट्रॉन	गोली 4 मिग्रा	1 गोली	5.23	1547(अ)	26-03-2024
542	ऑडान्सेट्रॉन	ओरल लिक्विड 2 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	1.28	1547(अ)	26-03-2024
543	ऑडान्सेट्रॉन	इंजेक्शन 2 मिग्रा / मिली	1 मिली	6.06	1547(अ)	26-03-2024
544	ऑडान्सेट्रॉन	गोली 8 मिग्रा	1 गोली	9.22	1547(अ)	26-03-2024

545	ओरल रीहायड्रेसन साल्ट	लाइसेंस के अनुसार	1 मिली	0.15	1547(अ)	26-03-2024
546	मौखिक पुनर्जलीकरण लवण	लाइसेंस के अनुसार	1 ग्राम	1.01	1992(अ)	15-05-2024
547	ऑर्मेलोक्सीफेन (सेंट्रोमैन)	गोली 30 मिग्रा	1 गोली	8.59	1547(अ)	26-03-2024
548	ऑक्सालिप्लैटिन	इंजेक्शन 5 मिग्रा / मिली 10 मिली वायल में	1 वायल	2272.83	1547(अ)	26-03-2024
549	ऑक्सालिप्लैटिन	इंजेक्शन 100 मिग्रा (लाइसेंस के अनुसार)	1 वायल	5066.34	1992(अ)	15-05-2024
550	ऑक्सीजन – लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन	चिकित्सा प्रयोजन के लिए लाइसेंस के अनुसार	1 क्यूबिक मीटर	17.32	1547(अ)	26-03-2024
551	ऑक्सीजन (सिलेंडर में)	चिकित्सा प्रयोजन के लिए लाइसेंस के अनुसार	1 क्यूबिक मीटर	29.33	1547(अ)	26-03-2024
552	ऑक्सीटोसिन	इंजेक्शन 5 आईयू / मिली	1 मिली	18.15	1547(अ)	26-03-2024
553	ऑक्सीटोसिन	इंजेक्शन 10 आईयू / मिली	1 मिली	40.56	1547(अ)	26-03-2024
554	पैक्लिटाक्सेल	इंजेक्शन 30 मिग्रा / 5 मिली, इंजेक्शन 100 मिग्रा / 16.7 मिली	1 मिली	219.19	1547(अ)	26-03-2024
555	पेंटोप्राज़ोल	इंजेक्शन 40 मिग्रा	1 वायल	51.33	1547(अ)	26-03-2024
556	पैरासेटामॉल	गोली 650 मिग्रा	1 गोली	2.04	1547(अ)	26-03-2024
557	पैरासेटामॉल	ओरल लिक्विड 125 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.38	1547(अ)	26-03-2024
558	पैरासेटामॉल	ओरल लिक्विड 250 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.68	1547(अ)	26-03-2024
559	पैरासेटामॉल	ओरल लिक्विड 120 मिग्रा/5 मिली (पी)	1 मिली	0.62	1547(अ)	26-03-2024
560	पैरासेटामॉल	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	0.92	1547(अ)	26-03-2024
561	पैरासेटामॉल	सपोसिटरी 80 मिग्रा	1 सपोसिटरी	6.78	1547(अ)	26-03-2024
562	पैरासेटामॉल	सपोसिटरी 170 मिग्रा	1 सपोसिटरी	8.09	1547(अ)	26-03-2024
563	पैरासेटामॉल	इंजेक्शन 150 मिग्रा / मिली (2 मिली)	1 मिली	4.04	1547(अ)	26-03-2024
564	पैरासेटामॉल	इंजेक्शन 150 मिग्रा / मिली (100 मिली)	1 मिली	1.63	1547(अ)	26-03-2024
565	पर्मेथ्रिन	क्रीम 5%	1 ग्राम	1.88	1547(अ)	26-03-2024
566	पर्मेथ्रिन	लोशन 1%	1 मिली	1.02	1547(अ)	26-03-2024
567	पर्मेथ्रिन	क्रीम 1%	1 ग्राम	1.53	1547(अ)	26-03-2024
568	पर्मेथ्रिन	लोशन 5%	1 मिली	1.02	1547(अ)	26-03-2024

			/ग्राम			
569	पर्मेथ्रिन	जेल 5%	1 ग्राम	1.33	1547(अ)	26-03-2024
570	फेनिरामाइन	इंजेक्शन 22.75 मिग्रा/मिली (2 मिली)	1 मिली	2.81	1547(अ)	26-03-2024
571	फेनिरामाइन	इंजेक्शन 22.75 मिग्रा/मिली (10 मिली)	1 मिली	2.10	1547(अ)	26-03-2024
572	फेनोबार्बिटोन	गोली 30 मिग्रा	1 गोली	1.33	1547(अ)	26-03-2024
573	फेनोबार्बिटोन	गोली 60 मिग्रा	1 गोली	1.92	1547(अ)	26-03-2024
574	फेनोबार्बिटोन	इंजेक्शन 200 मिग्रा / मिली	1 मिली	22.53	1547(अ)	26-03-2024
575	फेनोबार्बिटोन	ओरल लिक्विड 20 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.50	1547(अ)	26-03-2024
576	फिनाइटोइन	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	5.58	1547(अ)	26-03-2024
577	फिनाइटोइन	इंजेक्शन 50 मिग्रा / मिली	1 मिली	6.05	1547(अ)	26-03-2024
578	फिनाइटोइन	मोडीफाईड रिलीज़ गोली 300 मिग्रा	1 गोली	6.68	1547(अ)	26-03-2024
579	फिनाइटोइन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	1.79	1547(अ)	26-03-2024
580	फिनाइटोइन	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	0.85	1547(अ)	26-03-2024
581	फिनाइटोइन	ओरल लिक्विड 30 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.36	1547(अ)	26-03-2024
582	फिनाइटोइन	ओरल लिक्विड 125 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	1.12	1547(अ)	26-03-2024
583	फिनाइटोइन	कैप्सूल 300 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.73	1547(अ)	26-03-2024
584	फिनाइटोइन	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	1.86	1547(अ)	26-03-2024
585	फाइटोमेनाडियोन (विटामिन के1)	इंजेक्शन 10 मिग्रा / मिली	1 मिली	54.01	1547(अ)	26-03-2024
586	फाइटोमेनाडियोन (विटामिन के1)	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	14.79	1547(अ)	26-03-2024
587	पिलोकारपीन	ड्रॉप्स 2%	1 मिली	16.53	4498(अ)	14-10-2024
588	पाइपेरासिलिन (ए) + टैज़ोबैक्टम (बी)	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा (ए) + 125 मिग्रा (बी)	1 वायल	101.39	1547(अ)	26-03-2024
589	पाइपेरासिलिन (ए) + टैज़ोबैक्टम (बी)	इंजेक्शन के लिए पाउडर 2000 मिग्रा (ए) + 250 मिग्रा (बी)	1 वायल	194.88	1547(अ)	26-03-2024
590	पाइपेरासिलिन (ए) + टैज़ोबैक्टम (बी)	इंजेक्शन के लिए पाउडर 4000 मिग्रा	1 वायल	406.36	1547(अ)	26-03-2024

		(ए) + 500 मिग्रा (बी)				
591	पोटेशियम क्लोराइड	ओरल लिक्विड 500 मिग्रा / 5 मिली	1 मिली	0.31	1547(अ)	26-03-2024
592	पोटेशियम क्लोराइड	इंजेक्शन 150 मिग्रा / मिली	1 मिली	2.44	1547(अ)	26-03-2024
593	पोविडोन आयोडीन	सोल्यूसन 5%	1 मिली	0.45	1547(अ)	26-03-2024
594	पोविडोन आयोडीन	सोल्यूसन 7.5%	1 मिली	0.83	1547(अ)	26-03-2024
595	पोविडोन आयोडीन	सोल्यूसन 10%	1 मिली	0.98	1547(अ)	26-03-2024
596	पोविडोन आयोडीन	सोल्यूसन 4%	1 मिली	1.77	1547(अ)	26-03-2024
597	प्रेलिडोक्साइम क्लोराइड (2- पीएएम)	इंजेक्शन 25 मिग्रा / मिली	1 मिली	4.64	1547(अ)	26-03-2024
598	प्रेडनिसोलोन	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	3.47	1547(अ)	26-03-2024
599	प्रेडनिसोलोन	ओरल लिक्विड 5 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.50	1547(अ)	26-03-2024
600	प्रेडनिसोलोन	ओरल लिक्विड 15 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.87	1547(अ)	26-03-2024
601	प्रेडनिसोलोन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	1.22	1547(अ)	26-03-2024
602	प्रेडनिसोलोन	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	0.69	1547(अ)	26-03-2024
603	प्रेडनिसोलोन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	2.44	1547(अ)	26-03-2024
604	प्रेडनिसोलोन	ड्रॉप्स 1%	1 मिली	5.86	1547(अ)	26-03-2024
605	प्रीमिक्स इंसुलिन 30:70 इंजेक्शन (नियमित:एनपीएच)	इंजेक्शन 40 आईयू / मिली	1 मिली	17.29	1547(अ)	26-03-2024
606	प्राइमाक्वीन	गोली 7.5 मिग्रा	1 गोली	2.42	1547(अ)	26-03-2024
607	प्राइमाक्वीन	गोली 15 मिग्रा	1 गोली	5.23	1547(अ)	26-03-2024
608	प्राइमाक्वीन	गोली 2.5 मिग्रा	1 गोली	1.78	1547(अ)	26-03-2024
609	प्रोपैराकेन	आई ड्रॉप्स 0.5%	1 मिली	10.43	1547(अ)	26-03-2024
610	प्रोपोफॉल	इंजेक्शन 10 मिग्रा/ मिली	1 मिली	6.61	1547(अ)	26-03-2024
611	प्रोप्रानोलोल	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	3.28	1547(अ)	26-03-2024
612	प्रोप्रानोलोल	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	1.33	1547(अ)	26-03-2024
613	प्रोप्रानोलोल	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	3.26	1547(अ)	26-03-2024
614	प्रोप्रानोलोल	कैप्सूल 40 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.32	1547(अ)	26-03-2024
615	प्रोप्रानोलोल	कैप्सूल 20 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.39	1547(अ)	26-03-2024
616	प्रोप्रानोलोल	कैप्सूल 10 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.03	1547(अ)	26-03-2024
617	प्रोटामाइन सल्फेट	इंजेक्शन 10 मिग्रा / मिली	1 मिली	9.95	1547(अ)	26-03-2024
618	पायराज़ीनामाईड	गोली 1000 मिग्रा	1 गोली	10.71	1547(अ)	26-03-2024
619	पायराज़ीनामाईड	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	4.98	1547(अ)	26-03-2024

620	पायराज़ीनामाईड	गोली 750 मिग्रा	1 गोली	7.34	1547(अ)	26-03-2024
621	पायराज़ीनामाईड	गोली 1500 मिग्रा	1 गोली	12.02	1547(अ)	26-03-2024
622	पाइरिडोक्सिन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	6.08	1547(अ)	26-03-2024
623	पाइरिडोक्सिन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	0.11	1547(अ)	26-03-2024
624	कुनेन की दवा	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	5.75	1547(अ)	26-03-2024
625	कुनेन की दवा	इंजेक्शन 300 मिग्रा / मिली	1 मिली	9.67	1547(अ)	26-03-2024
626	रेबीज का टीका	लाइसेंस के अनुसार	1 वायल	385.30	1547(अ)	26-03-2024
627	राल्टेग्राविर	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	150.37	1547(अ)	26-03-2024
628	रेमीप्रिल	गोली 2.5 मिग्रा	1 गोली	5.30	1547(अ)	26-03-2024
629	रेमीप्रिल	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	8.32	1547(अ)	26-03-2024
630	रेमीप्रिल	कैप्सूल 2.5 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.74	1547(अ)	26-03-2024
631	रेमीप्रिल	कैप्सूल 5 मिग्रा	1 कैप्सूल	7.32	1547(अ)	26-03-2024
632	रिबावायरिन	कैप्सूल 200 मिग्रा	1 कैप्सूल	26.95	1547(अ)	26-03-2024
633	रिफैम्पिसिन	कैप्सूल 600 मिग्रा	1 कैप्सूल	11.56	1547(अ)	26-03-2024
634	रिफैम्पिसिन	कैप्सूल 450 मिग्रा	1 कैप्सूल	5.77	1547(अ)	26-03-2024
635	रिफैम्पिसिन	कैप्सूल 150 मिग्रा	1 कैप्सूल	2.33	1547(अ)	26-03-2024
636	रिफैम्पिसिन	कैप्सूल 300 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.69	1547(अ)	26-03-2024
637	रिफैम्पिसिन	ओरल लिक्विड 100 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.48	1547(अ)	26-03-2024
638	रिसपेरीडोन	गोली 1 मिग्रा	1 गोली	3.08	1547(अ)	26-03-2024
639	रिसपेरीडोन	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	4.56	1547(अ)	26-03-2024
640	रिसपेरीडोन	गोली 4 मिग्रा	1 गोली	7.49	1547(अ)	26-03-2024
641	रिसपेरीडोन	ओरल लिक्विड 1 मिग्रा / मिली	1 मिली	2.25	1547(अ)	26-03-2024
642	रिसपेरीडोन	इंजेक्शन (लॉग एक्टिंग) 25 मिग्रा	1 मिली	1963.89	1547(अ)	26-03-2024
643	रिसपेरीडोन	इंजेक्शन (लॉग एक्टिंग) 37.5 मिग्रा	1 मिली	2695.52	1547(अ)	26-03-2024
644	रिटोनावीर	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	29.72	1547(अ)	26-03-2024
645	रिटक्सिमैव	इंजेक्शन 10 मिग्रा / मिली	1 मिली	775.07	1547(अ)	26-03-2024
646	रोटा वायरस वैक्सीन	लाइसेंस के अनुसार	1 वायल	869.45	1547(अ)	26-03-2024
647	सैल्वुटामोल	गोली 4 मिग्रा	1 गोली	0.33	4498(अ)	14-10-2024
648	सैल्वुटामोल	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	0.27	4498(अ)	14-10-2024
649	सैल्वुटामोल	ओरल लिक्विड 2 मिग्रा / 5 मिली	1 मिली	0.18	1547(अ)	26-03-2024
650	सैल्वुटामोल	इन्हेलेशन	1 खुराक	0.50	1547(अ)	26-03-2024

		(एमडीआई/डीपीआई) 100 एमसीजी/खुराक				
651	सैल्वुटामोल	रेस्पाइरेटर सॉल्यूशन (नेबुलाइजर के लिए सॉल्यूशन 5 मिग्रा/मिली)	1 मिली	1.04	4498(अ)	14-10-2024
652	सेलिसिलिक एसिड	ओइंटमेंट 6%	1 ग्राम	2.06	1547(अ)	26-03-2024
653	सेलिसिलिक एसिड	ओइंटमेंट 3%	1 ग्राम	2.10	1547(अ)	26-03-2024
654	सेवोफ्तुरेन	लिक्विड फॉर इनहेलेशन	1 मिली	31.71	1547(अ)	26-03-2024
655	स्लेक वेनम एंटीसीरम	लाइओफिलाइज्ड पॉलीबलेंट -लाइसेंस के अनुसार	10 मिली की 1 वायल	676.84	1547(अ)	26-03-2024
656	स्लेक वेनम एंटीसीरम	सॉल्यूबल/पॉलीबलेंट - लाइसेंस के अनुसार	10 मिली की 1 वायल	436.13	1547(अ)	26-03-2024
657	सोडियम बाईकारबोनेट	इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) - 8.4%	1 मिली	1.37	1547(अ)	26-03-2024
658	सोडियम बाईकारबोनेट	इंजेक्शन (आईपी के अनुसार) - 7.5%	1 मिली	1.03	1547(अ)	26-03-2024
659	सोडियम वैल्प्रोएट	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	4.54	1547(अ)	26-03-2024
660	सोडियम वैल्प्रोएट	ओरल लिक्विड 200 मिग्रा / 5 मिली (पी)	1 मिली	0.66	1547(अ)	26-03-2024
661	सोडियम वैल्प्रोएट	गोली 200 मिग्रा	1 गोली	3.65	1547(अ)	26-03-2024
662	सोडियम वैल्प्रोएट	मोडीफाईड रिलीज - गोली 500 मिग्रा	1 गोली	9.44	1547(अ)	26-03-2024
663	सोडियम वैल्प्रोएट	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	8.26	1547(अ)	26-03-2024
664	सोडियम वैल्प्रोएट	मोडीफाईड रिलीज - गोली 300 मिग्रा	1 गोली	6.21	1547(अ)	26-03-2024
665	सोडियम वैल्प्रोएट	इंजेक्शन 100 मिग्रा/मिली	1 मिली	6.87	1547(अ)	26-03-2024
666	सोफोसबुविर	गोली 400 मिग्रा	1 गोली	534.26	1547(अ)	26-03-2024
667	सोमेटोस्टैटिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 3 मिग्रा	1 वायल	1382.65	1547(अ)	26-03-2024
668	स्पैरोनोलाक्टॉन	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	4.45	1547(अ)	26-03-2024
669	स्पैरोनोलाक्टॉन	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	2.23	1547(अ)	26-03-2024
670	स्ट्रुपटोकाईनेज	इंजेक्शन 15,00,000 आईयू	1 वायल	1910.00	1547(अ)	26-03-2024
671	स्ट्रेप्टोमाइसिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 750 मिग्रा	1 वायल	15.41	4498(अ)	14-10-2024
672	स्ट्रेप्टोमाइसिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा	1 वायल	16.57	4498(अ)	14-10-2024

673	सक्सिनीकोलिन	इंजेक्शन 50 मिग्रा / मिली	1 मिली	5.30	1547(अ)	26-03-2024
674	सलफासलजाइन	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	4.80	1547(अ)	26-03-2024
675	सुमाट्रिप्टान	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	33.07	1547(अ)	26-03-2024
676	सुमाट्रिप्टान	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	56.65	1547(अ)	26-03-2024
677	टेकरोलीमस	कैप्सूल 0.5 मिग्रा	1 कैप्सूल	21.02	1547(अ)	26-03-2024
678	टेकरोलीमस	कैप्सूल 1 मिग्रा	1 कैप्सूल	41.33	1547(अ)	26-03-2024
679	टेकरोलीमस	कैप्सूल 2 मिग्रा	1 कैप्सूल	85.81	1547(अ)	26-03-2024
680	टेकरोलीमस	गोली 1 मिग्रा	1 गोली	40.68	1547(अ)	26-03-2024
681	टेकरोलीमस	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	79.04	1547(अ)	26-03-2024
682	टेकरोलीमस	गोली 0.5 मिग्रा	1 गोली	21.33	1547(अ)	26-03-2024
683	टेमोक्सीफेन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	3.00	1547(अ)	26-03-2024
684	टेमोक्सीफेन	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	2.25	1547(अ)	26-03-2024
685	टेलिमसर्टन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	3.95	1547(अ)	26-03-2024
686	टेलिमसर्टन	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	6.88	1547(अ)	26-03-2024
687	टेलिमसर्टन	गोली 80 मिग्रा	1 गोली	10.58	1547(अ)	26-03-2024
688	टेमोज़ोलोमाइड	कैप्सूल 20 मिग्रा	1 कैप्सूल	449.01	1547(अ)	26-03-2024
689	टेमोज़ोलोमाइड	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	4378.91	1547(अ)	26-03-2024
690	टेमोज़ोलोमाइड	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	1534.96	1547(अ)	26-03-2024
691	टेमोज़ोलोमाइड	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	342.51	1547(अ)	26-03-2024
692	टेमोज़ोलोमाइड	गोली 250 मिग्रा	1 गोली	3823.55	1547(अ)	26-03-2024
693	टेनेक्टेप्लेस	इंजेक्शन 40 मिग्रा / वायल	1 वायल	51266.61	1547(अ)	26-03-2024
694	टेनेक्टेप्लेस	इंजेक्शन 30 मिग्रा / वायल	1 वायल	37552.36	1547(अ)	26-03-2024
695	टेनेलिग्लिप्टिन	गोली 20 मिग्रा	1 गोली	11.28	1547(अ)	26-03-2024
696	टेनोफोविर अलाफेनमाइड फ्यूमरेट (टीएएफ)	गोली 25 मिग्रा	1 गोली	49.72	1547(अ)	26-03-2024
697	टेनोफोविर डिस्प्राक्सिल फ्यूमरेट (ए) + लैमिवुडिन (बी)	गोली 300 मिग्रा (ए) + 300 मिग्रा(बी)	1 गोली	46.37	1547(अ)	26-03-2024
698	टेनोफोविर डिस्प्राक्सिल फ्यूमरेट (ए) + लैमिवुडिन (बी) + इफाविरेंज़ (सी)	गोली 300 मिग्रा(ए)+ 300 मिग्रा(बी) + 600 मिग्रा(सी)	1 गोली	104.64	1547(अ)	26-03-2024
699	टेनोफोविर डिस्प्राक्सिल फ्यूमरेट (टीडीएफ)	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	46.64	1547(अ)	26-03-2024
700	टेनोफोविर डिस्प्राक्सिल फ्यूमरेट + लैमिवुडिन + डोलुटेग्राविर	गोली 300मिग्रा + 300मिग्रा + 50 मिग्रा	1 गोली	116.99	1547(अ)	26-03-2024
701	टेरबिनाफाइन	क्रीम 1%	1 ग्राम	5.35	1547(अ)	26-03-2024

702	टिटनस टॉक्सॉइड	लाइसेंस के अनुसार (5 मिली)	1 वायल	25.97	1547(अ)	26-03-2024
703	टिटनस टॉक्सॉइड	लाइसेंस के अनुसार (0.5 मिली)	1 वायल (0.5 मिली)	12.69	1547(अ)	26-03-2024
704	थैलिडोमाइड	कैप्सूल 50 मिग्रा	1 कैप्सूल	31.70	1547(अ)	26-03-2024
705	थैलिडोमाइड	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	63.09	1547(अ)	26-03-2024
706	थियामाइन	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	4.54	1547(अ)	26-03-2024
707	थियामाइन	इंजेक्शन 100 मिग्रा / मिली	1 मिली	27.16	5498(अ)	19-12-2024
708	थियोपेनटोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1 ग्राम	1 वायल	56.28	1547(अ)	26-03-2024
709	थियोपेनटोन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 0.5 ग्राम	1 वायल	46.49	1547(अ)	26-03-2024
710	टिमोलोल	ड्रॉप्स 0.5%	1 मिली	13.63	1547(अ)	26-03-2024
711	टियोट्रोपियम	इनहेलेशन (एमडीआई) 9 एमसीजी / खुराक	1 मीटर खुराक	2.83	1547(अ)	26-03-2024
712	टियोट्रोपियम	इनहेलेशन (डीपीआई) 18 एमसीजी / खुराक	1 खुराक	10.90	1547(अ)	26-03-2024
713	ट्रामाडोल	इंजेक्शन 50 मिग्रा / मिली (2 मिली पैक तक)	1 मिली	11.99	1547(अ)	26-03-2024
714	ट्रामाडोल	कैप्सूल 50 मिग्रा	1 कैप्सूल	4.90	1547(अ)	26-03-2024
715	ट्रामाडोल	कैप्सूल 100 मिग्रा	1 कैप्सूल	9.20	1547(अ)	26-03-2024
716	ट्रामाडोल	गोली 50 मिग्रा	1 गोली	9.87	1547(अ)	26-03-2024
717	ट्रामाडोल	गोली 100 मिग्रा	1 गोली	24.91	1547(अ)	26-03-2024
718	ट्रेनेक्ज़ामिक एसिड	इंजेक्शन 100 मिग्रा / मिली	1 मिली	13.95	1547(अ)	26-03-2024
719	ट्रेनेक्ज़ामिक एसिड	गोली 500 मिग्रा	1 गोली	18.86	1547(अ)	26-03-2024
720	ट्रास्ट्रुजुमाव	इंजेक्शन 440 मिग्रा / 50 मिली	1 वायल	55677.58	1547(अ)	26-03-2024
721	ट्रीहेक्सफेनिडाइल	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	1.39	1547(अ)	26-03-2024
722	ट्राॅपिकैमाइड	आई ड्रॉप 1 %	1 मिली	9.59	1547(अ)	26-03-2024
723	वैलौन्सीक्लोविर	गोली 450 मिग्रा	1 गोली	415.38	3216(अ)	08-08-2024
724	वैनकॉमायसिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 500 मिग्रा	1 वायल	323.17	1547(अ)	26-03-2024
725	वैनकॉमायसिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 1000 मिग्रा	1 वायल	478.45	1547(अ)	26-03-2024
726	वैनकॉमायसिन	इंजेक्शन के लिए पाउडर 250 मिग्रा	1 वायल	255.62	1547(अ)	26-03-2024

727	वैनकॉमायसिन	कैप्सूल 250 मिग्रा	1 कैप्सूल	155.04	1547(अ)	26-03-2024
728	वेक्यूरोनियम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 10 मिग्रा	1 वायल	119.41	1547(अ)	26-03-2024
729	वेक्यूरोनियम	इंजेक्शन के लिए पाउडर 4 मिग्रा	1 वायल	75.69	1547(अ)	26-03-2024
730	वेरापामिल	गोली 80 मिग्रा	1 गोली	1.62	1547(अ)	26-03-2024
731	वेरापामिल	गोली 40 मिग्रा	1 गोली	0.87	1547(अ)	26-03-2024
732	विन्क्रिस्टाईन	इंजेक्शन 1 मिग्रा/मिली	1 मिली	58.52	1547(अ)	26-03-2024
733	विटामिन ए	गोली 50000 आईयू (चबाने योग्य गोली सहित)	1 गोली	0.74	1547(अ)	26-03-2024
734	विटामिन ए	इंजेक्शन 50000 आईयू/मिली	1 मिली	2.30	1547(अ)	26-03-2024
735	वारफरिन	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	2.44	1547(अ)	26-03-2024
736	वारफरिन	गोली 3 मिग्रा	1 गोली	3.24	1547(अ)	26-03-2024
737	वारफरिन	गोली 2 मिग्रा	1 गोली	2.77	1547(अ)	26-03-2024
738	वारफरिन	गोली 1 मिग्रा	1 गोली	2.50	1547(अ)	26-03-2024
739	इंजेक्शन के लिए पानी	इंजेक्शन	प्रत्येक पैक (10 मिली)	2.46	5497(अ)	19-12-2024
740	जाइलोमेटाजोलीन	नेज़ल ड्रॉप्स 0.05%	1 मिली	4.26	1547(अ)	26-03-2024
741	जाइलोमेटाजोलीन	नेज़ल ड्रॉप्स 0.1%	1 मिली	5.21	1547(अ)	26-03-2024
742	ज़िडोबुडिन	गोली 300 मिग्रा	1 गोली	13.83	1547(अ)	26-03-2024
743	ज़िडोबुडिन (ए) + लैमिवुडिन (बी) + नेविरापीन(सी)	गोली 300 मिग्रा (ए)+150 मिग्रा (बी) + 200 मिग्रा (सी)	1 गोली	21.50	1547(अ)	26-03-2024
744	ज़िडोबुडिन (ए) + लैमिवुडिन (बी)	गोली 300 मिग्रा (ए) + 150 मिग्रा (बी)	1 गोली	21.46	1547(अ)	26-03-2024
745	ज़िंक सल्फेट	डिस्पर्सिबल गोली 20 मिग्रा	1 गोली	3.47	1547(अ)	26-03-2024
746	ज़ोलेड्रोनिक् एसिड	इंजेक्शन के लिए पाउडर 4 मिग्रा	1 वायल	2433.68	1547(अ)	26-03-2024
747	ज़ोल्पीडेम	गोली 5 मिग्रा	1 गोली	6.32	1547(अ)	26-03-2024
748	ज़ोल्पीडेम	गोली 10 मिग्रा	1 गोली	8.66	1547(अ)	26-03-2024

नोट:-

(क) अधिकतम मूल्य 1.4.2025 से लागू होते हैं (अधिकतम मूल्य में 2023 की तुलना में वर्ष 2024 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) @1.74028% की दर शामिल हैं)।

- (ख) फॉर्मूलेशन के संबंध में जहां पैक के अनुसार अधिकतम सीमा मूल्य अधिसूचित किया जाता है, किसी भी अन्य पैक के आकार के लिए, निर्माता इसके निर्माण के लिए विशिष्ट मूल्य अनुमोदन के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 11 (3) के तहत एनपीपीए से संपर्क करेगा।
- (ग) किसी भी अन्य अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के संबंध में, जिसके लिए अधिकतम मूल्य का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, निर्माता इसके फॉर्मूलेशनों के लिए विशिष्ट मूल्य अनुमोदन के लिए एनपीपीए से संपर्क करेगा।
- (घ) अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी निर्माता, जो ब्रांडेड या जेनेरिक या अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के दोनों रूपों को सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित और अधिसूचित अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर के साथ) से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, ऐसे सभी फॉर्मूलेशनों की कीमतों को इस प्रकार संशोधित करेंगे जो उपरोक्त सारणी में कॉलम (5) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर अलग से, यदि कोई हो) से अधिक नहीं होंगे।
- (ङ) उपरोक्त सारणी के कॉलम 6 (ए) और 6 (बी) में निर्दिष्ट का. आ. संख्या और दिनांक के अनुसार अधिसूचित अधिकतम कीमत से कम अधिकतम खुदरा मूल्य वाले उपर्युक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशन के सभी मौजूदा निर्माता (साथ ही वस्तु और सेवा कर, यदि कोई हो), डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 16 (2) के अनुसार वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 के लिए डब्ल्यू. पी. आई. @1.74028% के आधार पर अपने फॉर्मूलेशन के मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य को संशोधित कर सकते हैं।
- (च) निर्माता वस्तु एवं सेवा कर तभी जोड़ सकते हैं जब यह उपरोक्त सारणी के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकतम मूल्य पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया हो या देय हो।
- (छ) सोडियम वालप्रोएट के फॉर्मूलेशन में सोडियम वालप्रोएट और वालप्रोइक एसिड का समिश्रण शामिल है, दोनों एक साथ बताए गए प्रबलता के सोडियम वालप्रोएट के अनुरूप हैं।
- (ज) क्रं.सं. 280 पर एनोक्सापारिन इंजेक्शन 40 मिली. जी./0.4 मिली. और 60 मिली. जी./0.6 मिली. के लिए निर्धारित अधिकतम मूल्य एनोक्सापारिन की किसी भी अन्य प्रबलता (जैसे 300 मिली. जी./3 मिली., 80 मिली. जी./0.8 मिली., 20 मिली. जी./0.2 मिली. आदि) पर भी समान अनुपात यानी 10 मिली. जी./0.1 मिली. के साथ लागू होते हैं।
- (झ) क्रं.सं. 554 पर पैक्लिटैक्सेल इंजेक्शन 30 मिलीग्राम/5 मिली और 100 मिलीग्राम/16.7 मिली के लिए तय की गई अधिकतम कीमतें पैक्लिटैक्सेल की किसी भी अन्य प्रबलता (300 मिलीग्राम/50 मिली, 260 मिलीग्राम/43.4 मिली, 250 मिलीग्राम/41.7 मिली, 200 मिलीग्राम/33.4 मिली आदि) पर समान अनुपात यानी 6 मिलीग्राम/मिली के साथ लागू होती हैं।
- (ञ) नेब्युलाइज़र 0.5 मिलीग्राम/ मिली में उपयोग के लिए बुडेसोनाइड रेस्पिरैटर सोल्यूशन और नेब्युलाइज़र 1 मिलीग्राम/ मिली में उपयोग के लिए बुडेसोनाइड रेस्पिरैटर सोल्यूशन (क्रं.सं. 104 और क्रं.सं. 105 पर उल्लिखित) के लिए निर्धारित अधिकतम मूल्य 0.5 मिलीग्राम/ 2 मिली और 1 मिलीग्राम/ 2 मिली पर भी अधिकतम मूल्य का 2 गुना क्रमशः 0.5 मिलीग्राम/ मिली और 1 मिलीग्राम/ मिली का लगाकर लागू होते हैं।
- (ट) यदि संशोधन किया जाता है तो, इसकी सूचना ऐसे संशोधनों को किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर की अवधि में प्रपत्र-11 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अथवा वास्तविक किसी भी तौर पर सरकार को अग्रेषित की जाएगी और इस उप-पैराग्राफ के तहत सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने को अधिकतम खुदरा मूल्य में संशोधन नहीं किया जाना माना जाएगा और संबंधित निर्माता अधिक शुल्क लेने की तिथि से उस पर ब्याज सहित पूर्व-संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ठ) अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के एक पैकेट के लिए अधिकतम मूल्य संबंधित निर्माता द्वारा डीपीसीओ 2013 के पैरा 11 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त सारणी के कॉलम (5) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। निर्माता डीपीसीओ 2013 के पैरा 24 के अनुसार अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से एनपीपीए को प्रपत्र-5 में मूल्य सूची जारी करेगा और राज्य औषधि नियंत्रक और विक्रेताओं को एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (ड) डीपीसीओ 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार, प्रत्येक खुदरा विक्रेता और विक्रेता निर्माता द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची और पूरक मूल्य सूची, यदि कोई हो, परिसर के उस विशिष्ट भाग में प्रदर्शित करेंगे जहां वह इस तरह से व्यवसाय करता है ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से सुलभ हो सके जो उससे परामर्श करना चाहता है।

- (ढ) जहां उपरोक्त सारणी में निर्दिष्ट अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के खुराक या शक्ति या दोनों का कोई मौजूदा निर्माता डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2 (1) (यू) के अनुसार एक नई दवा शुरू करता है, तो ऐसा मौजूदा निर्माता डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र-I में एनपीपीए को ऐसी नई दवा के पूर्व मूल्य अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।
- (ण) उपरोक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के निर्माता आईपीडीएमएस के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के प्रपत्र-III में अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के उत्पादन/आयात और बिक्री के संबंध में एनपीपीए को तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त अनुसूचित फॉर्मूलेशनों का उत्पादन बंद करने का इरादा रखने वाला कोई भी निर्माता डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-II के प्रपत्र-IV में अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के उत्पादन और/या आयात को बंद करने के संबंध में एनपीपीए को कम से कम छह महीने पहले जानकारी प्रस्तुत करेगा।
- (त) ऊपर निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करने वाले निर्माता आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत ब्याज के साथ अधिप्रभारित राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (थ) इस अधिसूचना में उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट किए गए ऐसे फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य जारी करने के परिणामस्वरूप, उपरोक्त अधिसूचना की तारीख से पहले जारी अधिकतम मूल्य या खुदरा मूल्य, यदि कोई हो, निर्धारित करने वाले मूल्य आदेश का स्थान ले लिया गया है।

[का. सं. /263/131/2025/एफ़ फा. सं. 8(131)/2025/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 27th March, 2025

S.O. 1489(E).— In exercise of the powers, conferred by paragraph 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. No. 1394(E) dated 30th May, 2013, S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order(s) of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. Number and date specified in column no. 6(a) & 6(b) mentioned in the table below, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling prices exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

Table

Price Revision as per Annual Wholesale Price Index (WPI) @ 1.74028% increase.

Sl. No.	Medicines	Dosage form and strength	Unit	Ceiling price (w.e.f. 1.4.2025 with WPI @ 1.74028%) (in Rs.)	Existing S.O., No. & Date	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(a)	6(b)
1	5-aminosalicylic Acid	Tablet 400 mg	1 Tablet	8.06	1992(E)	15-05-2024
2	5-Fluorouracil	Injection 250 mg/5 ml	1 ML	2.08	1547(E)	26-03-2024
3	6-Mercaptopurine	Tablet 50mg	1 Tablet	5.35	1547(E)	26-03-2024
4	Abacavir	Tablet 300 mg	1 Tablet	49.44	1547(E)	26-03-2024

5	Abacavir (A) +Lamivudine(B)	Tablet 600mg (A) +300mg (B)	1 Tablet	73.58	1547(E)	26-03-2024
6	Acetazolamide	Tablet 250mg	1 Tablet	4.13	1547(E)	26-03-2024
7	Acetazolamide	Capsule 250mg	1 Capsule	5.14	1547(E)	26-03-2024
8	Acetylsalicylic acid	Enteric coated Tablet 75 mg	1 Tablet	0.36	1547(E)	26-03-2024
9	Acetylsalicylic acid	Conventional/Effervescent/Dispersible/ Enteric coated Tablets 150 mg	1 Tablet	0.72	1547(E)	26-03-2024
10	Acetylsalicylic acid	Conventional / Effervescent / Dispersible / Enteric coated Tablets 325 mg	1 Tablet	0.68	1547(E)	26-03-2024
11	Actinomycin D	Powder for Injection 0.5mg	1 Vial	336.79	1547(E)	26-03-2024
12	Acyclovir	Tablet 400mg	1 Tablet	13.90	1547(E)	26-03-2024
13	Acyclovir	Tablet 200mg	1 Tablet	7.74	1547(E)	26-03-2024
14	Acyclovir	Powder for Injection 250 mg	1 Vial	433.82	1547(E)	26-03-2024
15	Acyclovir	Powder for Injection 500 mg	1 Vial	537.65	1547(E)	26-03-2024
16	Acyclovir	Tablet 800mg	1 Tablet	38.32	1547(E)	26-03-2024
17	Acyclovir	Ointment 3%	1 GM	11.87	1547(E)	26-03-2024
18	Acyclovir	Oral liquid 400mg/5mL (p)	1 ML	1.38	1547(E)	26-03-2024
19	Adenosine	Injection 3mg/mL	1 ML	94.48	1547(E)	26-03-2024
20	Adrenaline	Injection 1mg/mL	1 ML	12.44	1547(E)	26-03-2024
21	Albendazole	Oral liquid 200mg/5mL(p)	1 ML	1.82	1547(E)	26-03-2024
22	Albendazole	Tablet 400mg	1 Tablet	7.16	1547(E)	26-03-2024
23	Albendazole	Chewable Tablet 400mg	1 Tablet	8.27	1547(E)	26-03-2024
24	Allopurinol	Tablet 300mg	1 Tablet	5.73	1547(E)	26-03-2024
25	Allopurinol	Tablet 100mg	1 Tablet	1.92	1547(E)	26-03-2024
26	Alprostadil	Injection 0.5mg/mL	1 ML	6213.02	1547(E)	26-03-2024
27	Amikacin	Injection 250mg/mL	1 ML	55.11	1547(E)	26-03-2024
28	Amiodarone	Tablet 200mg	1 Tablet	11.71	1547(E)	26-03-2024
29	Amiodarone	Tablet 100mg	1 Tablet	6.25	1547(E)	26-03-2024
30	Amiodarone	Injection 50mg/mL	1 ML	21.50	1547(E)	26-03-2024
31	Amitriptyline	Tablet 50mg	1 Tablet	6.09	1547(E)	26-03-2024
32	Amitriptyline	Tablet 75mg	1 Tablet	5.54	1547(E)	26-03-2024
33	Amitriptyline	Tablet 25mg	1 Tablet	2.53	1547(E)	26-03-2024
34	Amitriptyline	Tablet 10mg	1 Tablet	2.43	1547(E)	26-03-2024
35	Amlodipine	Tablet 2.5mg	1 Tablet	1.82	1547(E)	26-03-2024
36	Amlodipine	Tablet 5mg	1 Tablet	2.54	1547(E)	26-03-2024

37	Amlodipine	Tablet 10mg	1 Tablet	5.54	1547(E)	26-03-2024
38	Amoxicillin	Capsule 250mg	1 Capsule	2.48	1547(E)	26-03-2024
39	Amoxicillin	Capsule 500mg	1 Capsule	7.49	1547(E)	26-03-2024
40	Amoxicillin	Oral liquid 250 mg/5 mL (p)	1 ML	1.59	1547(E)	26-03-2024
41	Amoxicillin	Powder for Injection 250 mg	1 Vial	25.22	1547(E)	26-03-2024
42	Amoxicillin	Powder for Injection 500 mg	1 Vial	55.60	1547(E)	26-03-2024
43	Amoxicillin	Oral liquid 125 mg/5 mL (p)	1 ML	1.04	1547(E)	26-03-2024
44	Amoxicillin (A) + Clavulanic acid (B)	Powder for Injection 1 g (A) +200mg (B)	1 Vial	144.12	659(E)	07-02-2025
45	Amoxicillin (A) + Clavulanic acid (B)	Powder for Injection 500mg (A) + 100mg (B)	1 Vial	103.11	1547(E)	26-03-2024
46	Amoxicillin (A) + Clavulanic acid (B)	Dry Syrup 125mg (A) + 31.25 (B)/5mL(p)	1 ML	2.09	1547(E)	26-03-2024
47	Amoxicillin (A) +Clavulanic acid (B)	Tablet 500 mg (A) + 125 mg (B)	1 Tablet	18.62	1547(E)	26-03-2024
48	Amoxicillin (A) +Clavulanic acid (B)	Oral liquid 200 mg (A) + 28.5mg(B)/5 mL(p)	1 ML	2.06	1547(E)	26-03-2024
49	Amphotericin B	Amphotericin B(conventional) - Injection 50mg/vial	1 Vial	231.36	1547(E)	26-03-2024
50	Amphotericin B Lipid	Injection 50mg/ vial	1 Vial	1920.60	5497(E)	19-12-2024
51	Amphotericin B Liposomal	Injection 50mg/ vial	1 Vial	6763.93	5497(E)	19-12-2024
52	Ampicillin	Powder for Injection 500 mg	1 Vial	14.50	1547(E)	26-03-2024
53	Ampicillin	Powder for Injection 1 gm	1 Vial	25.35	1992(E)	15-05-2024
54	Anti-rabies immunoglobulin	Injection 150 IU/ml	1 ML	3161.67	5497(E)	19-12-2024
55	Anti-rabies immunoglobulin	Injection 300 IU/ml	1 ML	111.47	5497(E)	19-12-2024
56	Anti-tetanus immunoglobulin	As licensed (250IU)	1 Vial	1266.45	5497(E)	19-12-2024
57	Anti-tetanus immunoglobulin	As licensed (500IU)	1 Vial	1908.39	5497(E)	19-12-2024
58	Anti-tetanus immunoglobulin	As licensed (1000IU)	1 Vial	2730.90	5497(E)	19-12-2024
59	Arsenic Trioxide	Injection 1mg/ml	1 ML	31.07	1547(E)	26-03-2024
60	Artemether (A) + Lumefantrine(B)	Tablet 40 mg (A) + 240 mg (B)	1 Tablet	18.35	1547(E)	26-03-2024
61	Artemether (A) +Lumefantrine(B)	Tablet 80mg(A)+480mg(B)	1 Tablet	25.95	1547(E)	26-03-2024

62	Artemether (A) +Lumefantrine(B)	Tablet 20 mg (A) + 120 mg (B)	1 Tablet	12.87	1547(E)	26-03-2024
63	Artesunate	Powder for Injection 60 mg	1 Vial	248.99	1547(E)	26-03-2024
64	Artesunate	Powder for Injection 120mg	1 Vial	462.35	1547(E)	26-03-2024
65	Artesunate (A) + Sulphadoxine - Pyrimethamine (B)	Combi pack (A+B) 1 Tablet 50mg (A) + 1Tablet (500mg + 25mg) (B)	1 Combi Pack	22.94	1547(E)	26-03-2024
66	Ascorbic acid (Vitamin C)	Tablet 100mg	1 Tablet	0.24	1547(E)	26-03-2024
67	Ascorbic acid (VitaminC)	Tablet 500mg	1 Tablet	1.57	5498(E)	19-12-2024
68	Atazanavir (A) +Ritonavir(B)	Tablet 300mg(A) + Tablet 100mg(B)	1 Tablet	101.57	1547(E)	26-03-2024
69	Atorvastatin	Tablet 40mg	1 Tablet	19.64	1547(E)	26-03-2024
70	Atorvastatin	Tablet 20mg	1 Tablet	12.78	1547(E)	26-03-2024
71	Atorvastatin	Tablet 10mg	1 Tablet	5.06	5498(E)	19-12-2024
72	Atorvastatin	Tablet 80mg	1 Tablet	41.29	1547(E)	26-03-2024
73	Atracurium	Injection 10 mg/ml	1 ML	17.28	1547(E)	26-03-2024
74	Atropine	Drops 1%	1 ML	4.01	1547(E)	26-03-2024
75	Atropine	Ointment 1%	1 GM	4.79	1547(E)	26-03-2024
76	Atropine	Injection 0.6mg/mL	1 ML	6.98	4498(E)	14-10-2024
77	Azathioprine	Tablet 50mg	1 Tablet	11.46	1547(E)	26-03-2024
78	Azathioprine	Tablet 25mg(p)	1 Tablet	7.37	1547(E)	26-03-2024
79	Azithromycin	Powder for Injection 500mg	1 Vial	208.28	1547(E)	26-03-2024
80	Azithromycin	Tablet 250mg	1 Tablet	11.87	659(E)	07-02-2025
81	Azithromycin	Tablet 500mg	1 Tablet	23.98	1547(E)	26-03-2024
82	Azithromycin	Oral liquid 200 mg/5 mL (p)	1 ML	3.47	1547(E)	26-03-2024
83	Azithromycin	Capsule250mg	1 Capsule	10.80	1547(E)	26-03-2024
84	Azithromycin	Tablet 1000mg	1 Tablet	58.79	1547(E)	26-03-2024
85	Azithromycin	Capsule 500mg	1 Capsule	19.36	1547(E)	26-03-2024
86	Baclofen	Tablet 20mg	1 Tablet	16.56	1547(E)	26-03-2024
87	Baclofen	Tablet 10mg	1 Tablet	12.11	1547(E)	26-03-2024
88	Baclofen	Tablet 5mg	1 Tablet	6.48	1547(E)	26-03-2024
89	BCG vaccine	As licensed	Each dose (0.10 ML)	8.15	5497(E)	19-12-2024
90	Bendamustine hydrochloride	Injection 100 mg/vial	1 Vial	5032.89	1547(E)	26-03-2024
91	Benzathine benzylpenicillin	Powder for Injection 12 lac units	1 Vial	20.15	1547(E)	26-03-2024
92	Benzathine benzylpenicillin	Powder for Injection 6 lac units	1 Vial	11.89	1547(E)	26-03-2024

93	Benzoyl peroxide	Gel 2.5%	1 GM	3.68	1547(E)	26-03-2024
94	Benzoyl peroxide	Gel 5%	1 GM	8.11	1547(E)	26-03-2024
95	Benzoyl peroxide	Gel 3.5%	1 GM	10.29	1547(E)	26-03-2024
96	Betamethasone	Injection 4mg/mL	1 ML	4.82	1547(E)	26-03-2024
97	Betamethasone valerate	Cream 0.05%	1 GM	0.68	1547(E)	26-03-2024
98	Betamethasone valerate	Cream 0.1%	1 GM	1.06	1547(E)	26-03-2024
99	Bicalutamide	Tablet 50mg	1 Tablet	44.05	1547(E)	26-03-2024
100	Bisacodyl	Tablet 5mg	1 Tablet	1.19	1547(E)	26-03-2024
101	Bisacodyl	Suppository 5mg	1 Suppository	10.15	1547(E)	26-03-2024
102	Bleomycin	Powder for Injection 15units	1 Vial	689.20	1547(E)	26-03-2024
103	Bortezomib	Powder for Injection 2mg	1 Vial	5352.05	1547(E)	26-03-2024
104	Budesonide	Respirator solution for use in nebulizer 0.5mg/mL	1 ML	12.11	1547(E)	26-03-2024
105	Budesonide	Respirator solution for use in nebulizer 1mg/mL	1 ML	13.37	1547(E)	26-03-2024
106	Budesonide	Inhalation (MDI) 100 mcg/dose	1 Metered Dose	1.43	1547(E)	26-03-2024
107	Budesonide	Inhalation (MDI) 200 mcg/dose	1 Metered Dose	2.07	1547(E)	26-03-2024
108	Budesonide	Inhalation (DPI) 200 mcg/dose	1 Dose	3.39	1547(E)	26-03-2024
109	Budesonide	Nasal Spray 100 mcg/dose	1 Dose	0.82	1547(E)	26-03-2024
110	Budesonide (A)+ Formoterol (B)	Inhalation (MDI) 100 mcg (A) + 6 mcg (B)	1 Metered Dose	2.16	1547(E)	26-03-2024
111	Budesonide (A)+ Formoterol (B)	Inhalation (DPI) 100 mcg (A) + 6 mcg (B)	1 Dose	4.40	1547(E)	26-03-2024
112	Budesonide (A)+ Formoterol (B)	Inhalation (DPI) 200 mcg (A) + 6 mcg (B)	1 Dose	5.82	1547(E)	26-03-2024
113	Budesonide (A)+ Formoterol (B)	Inhalation (DPI) 400 mcg (A) + 6 mcg (B)	1 Dose	7.07	1994(E)	15-05-2024
114	Budesonide (A) + Formoterol (B)	Inhalation (MDI) 200mcg (A) + 6mcg (B)	1 Metered dose	3.01	5497(E)	19-12-2024
115	Budesonide (A) + Formoterol (B)	Inhalation (MDI) 400mcg (A) + 6mcg (B)	1 Metered dose	3.43	5497(E)	19-12-2024
116	Bupivacaine	Injection 0.5 % with 7.5 % glucose	1 ML	7.52	1547(E)	26-03-2024
117	Bupivacaine	Injection 0.5 %	1 ML	4.50	1547(E)	26-03-2024
118	Bupivacaine	Injection 0.25%	1 ML	2.88	1547(E)	26-03-2024

119	Buprenorphine	Tablet (Sub-lingual)0.4mg	1 Tablet	9.59	1547(E)	26-03-2024
120	Buprenorphine (A) +Naloxone (B)	Tablet (Sub-lingual) 2mg(A)+0.5mg(B)	1 Tablet	37.62	1547(E)	26-03-2024
121	Buprenorphine (A) +Naloxone (B)	Tablet (Sub-lingual) 0.4mg(A)+0.1mg(B)	1 Tablet	12.03	1547(E)	26-03-2024
122	Caffeine	Oral liquid 20 mg/mL	1 ML	249.96	1547(E)	26-03-2024
123	Caffeine	Injection 20mg/mL	1 ML	254.86	1547(E)	26-03-2024
124	Calamine	Lotion (As per IP)	1 ML	0.97	1547(E)	26-03-2024
125	Calcium folinate	Tablet 15mg	1 Tablet	48.37	1547(E)	26-03-2024
126	Capecitabine	Tablet 500mg	1 Tablet	114.69	1547(E)	26-03-2024
127	Carbamazepine	Modified Release – Tablet 200mg	1 Tablet	2.44	1547(E)	26-03-2024
128	Carbamazepine	Modified Release – Tablet 400mg	1 Tablet	4.74	1547(E)	26-03-2024
129	Carbamazepine	Tablet 400mg	1 Tablet	3.61	1547(E)	26-03-2024
130	Carbamazepine	Tablet 200mg	1 Tablet	1.60	1547(E)	26-03-2024
131	Carbamazepine	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	0.32	1547(E)	26-03-2024
132	Carbamazepine	Tablet 100mg	1 Tablet	1.09	1547(E)	26-03-2024
133	Carbimazole	Tablet 10mg	1 Tablet	4.33	1547(E)	26-03-2024
134	Carbimazole	Tablet 5mg	1 Tablet	2.23	1547(E)	26-03-2024
135	Carbimazole	Tablet 20mg	1 Tablet	14.11	1547(E)	26-03-2024
136	Carboplatin	Injection 10mg/mL	1 ML	60.10	1547(E)	26-03-2024
137	Carboxymethyl cellulose	Drops 0.5%	1 ML	12.51	1547(E)	26-03-2024
138	Carboxymethyl cellulose	Drops 1%	1 ML	16.87	1547(E)	26-03-2024
139	Cefadroxil	Tablet 500mg	1 Tablet	6.83	4498(E)	14-10-2024
140	Cefadroxil	Oral liquid 125mg/5mL(p)	1 ML	0.69	1547(E)	26-03-2024
141	Cefixime	Tablet 400mg	1 Tablet	22.48	1547(E)	26-03-2024
142	Cefixime	Tablet 200mg	1 Tablet	9.95	1547(E)	26-03-2024
143	Cefixime	Oral liquid 50 mg/5 mL (p)	1 ML	1.66	1547(E)	26-03-2024
144	Cefixime	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	2.43	1547(E)	26-03-2024
145	Cefixime	Capsule 200mg	1 Capsule	14.94	1547(E)	26-03-2024
146	Cefotaxime	Powder for Injection 250 mg	1 Vial	18.03	1547(E)	26-03-2024
147	Cefotaxime	Powder for Injection 500 mg	1 Vial	24.80	1547(E)	26-03-2024
148	Cefotaxime	Powder for Injection 1000mg	1 Vial	40.66	1547(E)	26-03-2024
149	Ceftazidime	Powder for Injection 1000mg	1 Vial	230.97	1547(E)	26-03-2024

150	Ceftazidime	Powder for Injection 250 mg	1 Vial	80.45	1547(E)	26-03-2024
151	Ceftriaxone	Powder for Injection 500 mg	1 Vial	51.16	1547(E)	26-03-2024
152	Ceftriaxone	Powder for Injection 250 mg	1 Vial	28.83	1547(E)	26-03-2024
153	Ceftriaxone	Powder for Injection 1000mg	1 Vial	63.47	1547(E)	26-03-2024
154	Ceftriaxone	Powder for Injection 2000mg	1 Vial	140.52	1547(E)	26-03-2024
155	Cefuroxime	Tablet 500mg	1 Tablet	52.33	1547(E)	26-03-2024
156	Cefuroxime	Injection 1500 mg	1 Vial	344.66	1547(E)	26-03-2024
157	Cefuroxime	Oral liquid 125mg/5mL(p)	1 ML	5.40	1550(E)	26-03-2024
158	Cetirizine	Tablet 10mg	1 Tablet	1.91	1547(E)	26-03-2024
159	Cetirizine	Oral liquid 5mg/5mL(p)	1 ML	0.67	1547(E)	26-03-2024
160	Chlorambucil	Tablet 2 mg	1 Tablet	31.70	1547(E)	26-03-2024
161	Chlorambucil	Tablet 5 mg	1 Tablet	78.55	1547(E)	26-03-2024
162	Chloroquine	Tablet 150 mg	1 Tablet	1.35	3868(E)	10-09-2024
163	Chloroquine	Oral liquid 50mg/5mL	1 ML	0.35	1547(E)	26-03-2024
164	Cholecalciferol	Tablet 1000 IU	1 Tablet	4.39	1547(E)	26-03-2024
165	Cholecalciferol	Oral liquid 400 IU/mL	1 ML	2.66	1547(E)	26-03-2024
166	Cholecalciferol	Tablet 60000 IU	1 Tablet	22.89	1547(E)	26-03-2024
167	Cholecalciferol	Capsule 60000 IU	1 Capsule	31.32	1547(E)	26-03-2024
168	Cholecalciferol	Capsule 1000 IU	1 Capsule	4.98	1547(E)	26-03-2024
169	Cholecalciferol	Solid oral dosage form 60000 IU Sachet/Granuels/Powd er	1 GM	34.57	1547(E)	26-03-2024
170	Cholecalciferol	Solid oral dosage form 1000 IU Sachet/Granuels/Powd er	1 GM	23.54	1547(E)	26-03-2024
171	Ciprofloxacin	Tablet 250mg	1 Tablet	2.24	1547(E)	26-03-2024
172	Ciprofloxacin	Tablet 500mg	1 Tablet	4.32	1547(E)	26-03-2024
173	Ciprofloxacin	Drops 0.3 %	1 ML	1.57	1547(E)	26-03-2024
174	Ciprofloxacin	Injection 200mg/100mL	1 ML	0.20	1547(E)	26-03-2024
175	Ciprofloxacin	Oral liquid 250mg/5mL(p)	1 ML	0.75	1547(E)	26-03-2024
176	Ciprofloxacin	Ointment 0.3%	1 GM	1.31	1547(E)	26-03-2024
177	Cisplatin	Injection 1mg/mL	1 ML	7.21	1547(E)	26-03-2024
178	Clarithromycin	Tablet 250mg	1 Tablet	24.48	5498(E)	19-12-2024
179	Clarithromycin	Tablet 500mg	1 Tablet	40.53	1547(E)	26-03-2024
180	Clarithromycin	Oral liquid	1 ML	4.73	5498(E)	19-12-2024

		125mg/5mL(p)				
181	Clindamycin	Capsule 150mg	1 Capsule	16.64	1547(E)	26-03-2024
182	Clindamycin	Capsule 300mg	1 Capsule	28.86	1547(E)	26-03-2024
183	Clindamycin	Tablet 300mg	1 Tablet	19.30	1547(E)	26-03-2024
184	Clindamycin	Injection 150mg/mL	1 ML	61.65	1547(E)	26-03-2024
185	Clobazam	Tablet 5mg	1 Tablet	5.83	1547(E)	26-03-2024
186	Clobazam	Tablet 10mg	1 Tablet	10.01	1547(E)	26-03-2024
187	Clofazimine	Capsule 100mg	1 Capsule	4.05	1547(E)	26-03-2024
188	Clofazimine	Capsule 50mg	1 Capsule	2.15	1547(E)	26-03-2024
189	Clomiphene citrate	Capsule 50mg	1 Capsule	27.85	1547(E)	26-03-2024
190	Clomiphene citrate	Capsule 100 mg	1 Capsule	52.03	1547(E)	26-03-2024
191	Clomiphene citrate	Tablet 100 mg	1 Tablet	14.19	1547(E)	26-03-2024
192	Clomiphene citrate	Tablet 50mg	1 Tablet	8.99	1547(E)	26-03-2024
193	Clomipramine	Tablet 10 mg	1 Tablet	2.90	1547(E)	26-03-2024
194	Clomipramine	Tablet 25 mg	1 Tablet	6.33	1547(E)	26-03-2024
195	Clomipramine	Tablet 75 mg	1 Tablet	16.75	1547(E)	26-03-2024
196	Clonazepam	Tablet 0.25mg	1 Tablet	2.06	1547(E)	26-03-2024
197	Clonazepam	Tablet 0.5mg	1 Tablet	3.51	1547(E)	26-03-2024
198	Clonazepam	Tablet 1mg	1 Tablet	4.85	1547(E)	26-03-2024
199	Clopidogrel	Tablet 75mg	1 Tablet	6.78	1547(E)	26-03-2024
200	Clopidogrel	Tablet 150 mg	1 Tablet	20.84	1547(E)	26-03-2024
201	Clotrimazole	Lotion 1%	1 ML	3.96	1547(E)	26-03-2024
202	Clotrimazole	Pessary 100mg	1 Pessary	10.18	1547(E)	26-03-2024
203	Clotrimazole	Drops 1%	1 ML	3.43	1547(E)	26-03-2024
204	Clotrimazole	Cream 1%	1 GM	3.05	1547(E)	26-03-2024
205	Cloxacillin	Capsule 500mg	1 Capsule	2.42	1992(E)	15-05-2024
206	Cloxacillin	Capsule 250mg	1 Capsule	1.43	1992(E)	15-05-2024
207	Clozapine	Tablet 25mg	1 Tablet	2.83	1547(E)	26-03-2024
208	Clozapine	Tablet 50mg	1 Tablet	5.28	1547(E)	26-03-2024
209	Clozapine	Tablet 100 mg	1 Tablet	8.60	1547(E)	26-03-2024
210	Colchicine	Tablet 0.5mg	1 Tablet	3.32	1547(E)	26-03-2024
211	Co-trimoxazole [Sulphamethoxazole (A) +Trimethoprim(B)]	Tablet 400 mg (A) + 80 mg (B)	1 Tablet	0.92	1547(E)	26-03-2024
212	Co-trimoxazole [Sulphamethoxazole (A) +Trimethoprim(B)]	Oral liquid 200 mg (A) + 40 mg(B)/5mL(p)	1 ML	0.36	1547(E)	26-03-2024
213	Co-trimoxazole [Sulphamethoxazole (A)+Trimethoprim (B)]	Tablet 800mg (A) + 160 mg (B)	1 Tablet	2.34	1547(E)	26-03-2024
214	Cyclophosphamide	Powder for Injection 500mg	1 Vial	74.76	1547(E)	26-03-2024

215	Cyclophosphamide	Tablet 50mg	1 Tablet	3.79	1547(E)	26-03-2024
216	Cycloserine	Capsule 250mg	1 Capsule	60.22	1547(E)	26-03-2024
217	Cycloserine	Tablet 250mg	1 Tablet	46.81	1547(E)	26-03-2024
218	Cyclosporine	Capsule 25 mg	1 Capsule	28.53	1547(E)	26-03-2024
219	Cyclosporine	Oral liquid 100mg/mL(p)	1 ML	81.98	1547(E)	26-03-2024
220	Cyclosporine	Capsule 50 mg	1 Capsule	56.07	1547(E)	26-03-2024
221	Cyclosporine	Capsule 100mg	1 Capsule	104.91	1547(E)	26-03-2024
222	Cytosine arabinoside	Injection 1000mg/vial	1 Vial	1150.00	1547(E)	26-03-2024
223	Cytosine arabinoside	Injection 100mg/vial	1 Vial	142.02	1547(E)	26-03-2024
224	Cytosine arabinoside	Injection 500mg/vial	1 Vial	545.66	1547(E)	26-03-2024
225	Dabigatran	Capsule 110mg	1 Capsule	32.36	1547(E)	26-03-2024
226	Dabigatran	Capsule 150mg	1 Capsule	36.21	1547(E)	26-03-2024
227	Dacarbazine	Powder for Injection 200mg	1 Vial	388.39	1547(E)	26-03-2024
228	Dacarbazine	Powder for Injection 500mg	1 Vial	527.86	1547(E)	26-03-2024
229	Daclatasvir	Tablet 60mg	1 Tablet	203.45	1547(E)	26-03-2024
230	Dapsone	Tablet 100 mg	1 Tablet	0.42	1547(E)	26-03-2024
231	Darunavir	Tablet 600mg	1 Tablet	157.13	1547(E)	26-03-2024
232	Darunavir (A) +Ritonavir (B)	Tablet 600mg (A) + 100mg (B)	1 Tablet	149.01	1547(E)	26-03-2024
233	Desferrioxamine	Powder for Injection 500mg	1 Vial	287.90	4498(E)	14-10-2024
234	Dexamethasone	Tablet 0.5mg	1 Tablet	0.22	1547(E)	26-03-2024
235	Dexamethasone	Tablet 4 mg	1 Tablet	4.70	1547(E)	26-03-2024
236	Dexamethasone	Injection 4mg/mL (2 ML)	1 ML	5.18	1547(E)	26-03-2024
237	Dexamethasone	Injection 4mg/mL (5 ML)	1 ML	2.61	1547(E)	26-03-2024
238	Dexamethasone	Injection 4mg/mL (Pack of 10ML)	1 ML	1.60	1547(E)	26-03-2024
239	Dexamethasone	Injection 4mg/mL (Pack of 20 ML)	1 ML	1.37	1547(E)	26-03-2024
240	Dexamethasone	Injection 4mg/mL (Pack of 30ML)	1 ML	0.92	1547(E)	26-03-2024
241	Diazepam	Tablet 5 mg	1 Tablet	1.66	1547(E)	26-03-2024
242	Diazepam	Injection 5mg/mL	1 ML	5.64	1547(E)	26-03-2024
243	Diazepam	Tablet 2 mg	1 Tablet	1.47	1547(E)	26-03-2024
244	Diazepam	Suppository 5mg	1 Suppository	6.30	1547(E)	26-03-2024
245	Diclofenac	Tablet 50mg	1 Tablet	2.09	1547(E)	26-03-2024
246	Diclofenac	Injection 25mg/mL	1 ML	1.72	1547(E)	26-03-2024
247	Dicyclomine	Injection 10mg/mL (Less than 10ML)	1 ML	3.38	1547(E)	26-03-2024

		Pack)				
248	Dicyclomine	Injection 10mg/mL (10 ML & more pack))	1 ML	2.14	1547(E)	26-03-2024
249	Diethylcarbamazine (DEC)	Tablet 100mg	1 Tablet	1.70	1547(E)	26-03-2024
250	Diethylcarbamazine (DEC)	Tablet 50mg	1 Tablet	0.57	1547(E)	26-03-2024
251	Diethylcarbamazine (DEC)	Oral liquid 120mg/5mL(p)	1 ML	0.49	1547(E)	26-03-2024
252	Digoxin	Tablet 0.25mg	1 Tablet	1.35	1547(E)	26-03-2024
253	Digoxin	Oral liquid 0.05mg/mL	1 ML	1.50	1547(E)	26-03-2024
254	Digoxin	Injection 0.25mg/mL	1 ML	3.94	1547(E)	26-03-2024
255	Diltiazem	Tablet 60mg	1 Tablet	5.56	1547(E)	26-03-2024
256	Diltiazem	Tablet 30mg	1 Tablet	2.73	1547(E)	26-03-2024
257	Diltiazem	Injection 5mg/mL	1 ML	3.56	1547(E)	26-03-2024
258	Dinoprostone	Gel 0.5mg	1 GM	86.19	1547(E)	26-03-2024
259	Disposable Pen containing Insulin Glargine	Injection 100 IU/ml	1 ML	248.39	1547(E)	26-03-2024
260	Dobutamine	Injection 50 mg/ml	1 ML	9.19	1547(E)	26-03-2024
261	Docetaxel	Powder for Injection 20mg	1 Vial	2918.31	1547(E)	26-03-2024
262	Docetaxel	Powder for Injection 80mg	1 Vial	10513.53	1547(E)	26-03-2024
263	Dolutegravir	Tablet 50mg	1 Tablet	114.75	1547(E)	26-03-2024
264	Domperidone	Tablet 10mg	1 Tablet	2.35	1547(E)	26-03-2024
265	Domperidone	Oral Liquid 1mg/mL	1 ML	1.26	1547(E)	26-03-2024
266	Donepezil	Tablet 10mg	1 Tablet	17.76	1547(E)	26-03-2024
267	Donepezil	Tablet 5mg	1 Tablet	12.32	1547(E)	26-03-2024
268	Dopamine	Injection 40mg/mL	1 ML	4.85	1547(E)	26-03-2024
269	Doxorubicin	Injection 2mg/mL	1 ML	32.30	1547(E)	26-03-2024
270	Doxycycline	Capsule 100mg	1 Capsule	3.13	1547(E)	26-03-2024
271	Doxycycline	Tablet 100mg	1 Tablet	1.24	1547(E)	26-03-2024
272	Doxycycline	Powder for Injection 100 mg	1 Vial	511.39	1547(E)	26-03-2024
273	D-Penicillamine	Capsule 250 mg	1 Capsule	15.92	1547(E)	26-03-2024
274	DPT+ Hib+ Hep B Vaccine	As licensed	Per 0.1 ML	76.97	1547(E)	26-03-2024
275	Efavirenz	Tablet 600mg	1 Tablet	71.82	1547(E)	26-03-2024
276	Efavirenz	Tablet 200 mg (p)	1 Tablet	22.93	1547(E)	26-03-2024
277	Efavirenz	Capsule 200 mg	1 Capsule	22.36	1547(E)	26-03-2024
278	Enalapril	Tablet 5mg	1 Tablet	3.76	1547(E)	26-03-2024
279	Enalapril	Tablet 2.5mg	1 Tablet	2.23	1547(E)	26-03-2024
280	Enoxaparin	Injection	Per 0.10 ML	113.94	1547(E)	26-03-2024

		40mg/0.4mL, Injection 60mg/0.6 ml				
281	Entecavir	Tablet 1mg	1 Tablet	132.51	1547(E)	26-03-2024
282	Entecavir	Tablet 0.5mg	1 Tablet	85.91	1547(E)	26-03-2024
283	Erythropoietin	Injection 2000IU/mL	1 ML	559.14	1547(E)	26-03-2024
284	Erythropoietin	Injection 10000 IU/mL	1 ML	2003.38	1547(E)	26-03-2024
285	Escitalopram	Tablet 5mg	1 Tablet	5.11	1547(E)	26-03-2024
286	Escitalopram	Tablet 10mg	1 Tablet	9.16	1547(E)	26-03-2024
287	Escitalopram	Tablet 20mg	1 Tablet	14.61	1547(E)	26-03-2024
288	Esmolol	Injection 10 mg/mL	1 ML	26.84	1547(E)	26-03-2024
289	Ethambutol	Tablet 600mg	1 Tablet	4.15	1547(E)	26-03-2024
290	Ethambutol	Tablet 800mg	1 Tablet	5.05	1547(E)	26-03-2024
291	Ethambutol	Tablet 400mg	1 Tablet	2.66	1547(E)	26-03-2024
292	Ethambutol	Tablet 200mg	1 Tablet	1.16	1547(E)	26-03-2024
293	Ethinylestradiol (A)+ Levonorgestrel (B)	Tablet 0.03mg(A) + Tablet 0.15mg(B)	1 Tablet	3.23	1547(E)	26-03-2024
294	Ethionamide	Tablet 250mg	1 Tablet	15.07	1547(E)	26-03-2024
295	Etoposide	Capsule 50mg	1 Capsule	57.62	1547(E)	26-03-2024
296	Etoposide	Injection 20mg/mL	1 ML	35.11	1547(E)	26-03-2024
297	Fentanyl	Injection 50mcg/ml	1 ML	21.32	1547(E)	26-03-2024
298	Filgrastim	Injection 300mcg	1 Vial	1180.16	1547(E)	26-03-2024
299	Fluconazole	Tablet 400mg	1 Tablet	30.27	1547(E)	26-03-2024
300	Fluconazole	Tablet 200mg	1 Tablet	17.76	1547(E)	26-03-2024
301	Fluconazole	Tablet 100mg	1 Tablet	7.75	1547(E)	26-03-2024
302	Fluconazole	Tablet 150mg	1 Tablet	12.27	1547(E)	26-03-2024
303	Fluconazole	Tablet 50mg	1 Tablet	9.85	1547(E)	26-03-2024
304	Fluconazole	Capsule 200mg	1 Capsule	40.81	1547(E)	26-03-2024
305	Fluconazole	Capsule 150mg	1 Capsule	19.55	1547(E)	26-03-2024
306	Fluconazole	Injection 200mg/100mL	Per 100 ML Vial	93.94	1547(E)	26-03-2024
307	Fluconazole	Capsule 100mg	1 Capsule	21.77	1547(E)	26-03-2024
308	Fludrocortisone	Tablet 0.1mg	1 Tablet	13.43	1547(E)	26-03-2024
309	Flunarizine	Tablet 5mg	1 Tablet	2.52	1547(E)	26-03-2024
310	Flunarizine	Tablet 10mg	1 Tablet	4.90	1547(E)	26-03-2024
311	Fluoxetine	Capsule 20 mg	1 Capsule	4.06	1547(E)	26-03-2024
312	Fluoxetine	Capsule 60 mg	1 Capsule	11.29	1547(E)	26-03-2024
313	Fluoxetine	Capsule 40 mg	1 Capsule	6.60	1547(E)	26-03-2024
314	Fluoxetine	Capsule 10 mg	1 Capsule	3.38	1547(E)	26-03-2024
315	Fluoxetine	Tablet 10 mg	1 Tablet	2.83	1547(E)	26-03-2024
316	Fluoxetine	Tablet 40 mg	1 Tablet	5.66	1547(E)	26-03-2024
317	Fluoxetine	Tablet 60 mg	1 Tablet	8.39	1547(E)	26-03-2024

318	Fluoxetine	Tablet 20 mg	1 Tablet	4.22	1547(E)	26-03-2024
319	Fluphenazine	Injection 25mg/mL	1 ML	56.22	1547(E)	26-03-2024
320	Folic Acid	Tablet 5 mg	1 Tablet	1.54	1547(E)	26-03-2024
321	Folic Acid	Capsule 5 mg	1 Capsule	5.13	1547(E)	26-03-2024
322	Framycetin	Cream 1 %	1 GM	1.69	1547(E)	26-03-2024
323	Furosemide	Tablet 40mg	1 Tablet	0.93	1547(E)	26-03-2024
324	Furosemide	Injection 10mg/mL	1 ML	3.04	1547(E)	26-03-2024
325	Furosemide	Oral liquid 10mg/mL	1 ML	3.38	1547(E)	26-03-2024
326	Fusidic acid	Cream 2 %	1 GM	10.00	1547(E)	26-03-2024
327	Gefitinib	Tablet 250mg	1 Tablet	241.27	1547(E)	26-03-2024
328	Gemcitabine	Powder for Injection 1000mg	1 Vial	5689.88	1547(E)	26-03-2024
329	Gemcitabine	Powder for Injection 200 mg	1 Vial	1322.42	1547(E)	26-03-2024
330	Gentamicin	Injection 40mg/mL (1.5 ml)	1 ML	2.95	1547(E)	26-03-2024
331	Gentamicin	Injection 10mg/mL	1 ML	2.45	1547(E)	26-03-2024
332	Gentamicin	Injection 40mg/mL (Pack of 10ml)	1 ML	1.54	1547(E)	26-03-2024
333	Gentamicin	Injection 40mg/mL (Pack of 20ml)	1 ML	1.58	1547(E)	26-03-2024
334	Gentamicin	Injection 40mg/mL Pack of 30ml)	1 ML	1.25	1547(E)	26-03-2024
335	Gentamicin	Injection 40mg/mL (2ml)	1 ML	4.93	1547(E)	26-03-2024
336	Glimepiride	Tablet 2mg	1 Tablet	5.90	1547(E)	26-03-2024
337	Glimepiride	Tablet 1mg	1 Tablet	3.76	1547(E)	26-03-2024
338	Glucose	Injection 25%	1 ML	0.20	1547(E)	26-03-2024
339	Glycerin/glycerol (as mentioned in IP)	Topical - Lotion	1 ML	1.25	1547(E)	26-03-2024
340	Glycerin/glycerol (as mentioned in IP)	Topical - Cream	1 GM	2.41	1547(E)	26-03-2024
341	Glyceryl trinitrate	Injection 5mg/mL	1 ML	6.30	1547(E)	26-03-2024
342	Glyceryl trinitrate	Sublingual Tablet 0.5mg	1 Tablet	1.29	1547(E)	26-03-2024
343	Glycopyrrolate	Injection 0.2mg/mL	1 ML	14.78	1547(E)	26-03-2024
344	Griseofulvin	Tablet 250mg	1 Tablet	1.80	1547(E)	26-03-2024
345	Haloperidol	Tablet 5mg	1 Tablet	3.63	1547(E)	26-03-2024
346	Haloperidol	Tablet 10mg	1 Tablet	4.86	1547(E)	26-03-2024
347	Haloperidol	Oral liquid 2mg/5mL	1 ML	2.28	1547(E)	26-03-2024
348	Haloperidol	Injection 5mg/mL	1 ML	6.62	1547(E)	26-03-2024
349	Haloperidol	Tablet 20mg	1 Tablet	5.45	1547(E)	26-03-2024
350	Haloperidol	Tablet 1.5mg	1 Tablet	1.61	1547(E)	26-03-2024
351	Halothane	Liquid for inhalation	1 ML	6.21	1547(E)	26-03-2024

352	Heparin	Injection 1000IU/mL	1 ML	21.58	1547(E)	26-03-2024
353	Heparin	Injection 5000IU/mL	1 ML	61.00	1547(E)	26-03-2024
354	Hepatitis B immunoglobulin	As Licensed	1 Vial	5594.39	1547(E)	26-03-2024
355	Hepatitis B vaccine	As Licensed	1 ML	80.19	1547(E)	26-03-2024
356	Homatropine	Drops 2%	1 ML	6.51	1547(E)	26-03-2024
357	Hormone Releasing IUD	Contains 52 mg of Levonorgestrel	1 IUD	4174.94	1547(E)	26-03-2024
358	Human chorionic gonado tropin	Injection 5000 IU	1 Vial	424.74	1547(E)	26-03-2024
359	Human chorionic gonado tropin	Injection 10000IU	1 Vial	944.46	1547(E)	26-03-2024
360	Human chorionic gonado tropin	Injection 2000 IU	1 Vial	349.64	1547(E)	26-03-2024
361	Hydrochlorothiazide	Tablet 25 mg	1 Tablet	1.78	1547(E)	26-03-2024
362	Hydrochlorothiazide	Tablet 12.5mg	1 Tablet	1.06	1547(E)	26-03-2024
363	Hydrocortisone	Powder for Injection 100mg	1 Vial	45.57	1547(E)	26-03-2024
364	Hydrocortisone	Tablet 10mg	1 Tablet	6.82	1547(E)	26-03-2024
365	Hydrocortisone	Powder for Injection 200mg	1 Vial	66.74	1547(E)	26-03-2024
366	Hydrocortisone	Tablet 5mg	1 Tablet	3.17	1547(E)	26-03-2024
367	Hydrocortisone	Tablet 20mg	1 Tablet	15.15	1547(E)	26-03-2024
368	Hydroxy propylmethyl cellulose	Injection 2%	1 ML	29.72	1547(E)	26-03-2024
369	Hydroxychloroquine	Tablet 400mg	1 Tablet	14.04	1547(E)	26-03-2024
370	Hydroxychloroquine	Tablet 200mg	1 Tablet	6.47	1547(E)	26-03-2024
371	Hydroxyurea	Capsule 500mg	1 Capsule	12.33	1547(E)	26-03-2024
372	Hyoscine butylbromide	Injection 20 mg/ml	1 ML	11.44	1547(E)	26-03-2024
373	Ibuprofen	Tablet 200mg	1 Tablet	0.72	1547(E)	26-03-2024
374	Ibuprofen	Tablet 400mg	1 Tablet	1.22	1547(E)	26-03-2024
375	Ibuprofen	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	0.22	1547(E)	26-03-2024
376	Ifosfamide	Powder for Injection 2000mg	1 Vial	654.35	1547(E)	26-03-2024
377	Ifosfamide	Powder for Injection 1000mg	1 Vial	324.51	1547(E)	26-03-2024
378	Imatinib	Tablet 100mg	1 Tablet	70.96	1547(E)	26-03-2024
379	Imatinib	Tablet 400mg	1 Tablet	203.09	1547(E)	26-03-2024
380	Imatinib	Capsule 100mg	1 Capsule	74.76	1547(E)	26-03-2024
381	Insulin (Soluble)	Injection 40 IU/ml	1 ml	17.29	1547(E)	26-03-2024
382	Insulin Glargine	Injection 100 IU/ml	1 ML	207.00	1547(E)	26-03-2024
383	Insulin Intermediate Acting (NPH)	Injection 40IU/mL	1 ML	17.29	1547(E)	26-03-2024

384	Iohexol	Injection 300mg iodine/mL	1 ML	17.19	1547(E)	26-03-2024
385	Iohexol	Injection 350mg iodine/mL	1 ML	14.49	1547(E)	26-03-2024
386	Irinotecan HCltrihydrate	Solution for injection 20mg/mL	1 ML	981.68	1547(E)	26-03-2024
387	Iron sucrose	Injection 20mg/mL	1 ML	58.41	1547(E)	26-03-2024
388	Isoflurane	Liquid for inhalation	1 ML	9.82	1547(E)	26-03-2024
389	Isoniazid	Tablet 300mg	1 Tablet	1.31	1547(E)	26-03-2024
390	Isoniazid	Tablet 100mg	1 Tablet	0.74	1993(E)	15-05-2024
391	Isosorbide dinitrate	Tablet 5mg	1 Tablet	0.83	1547(E)	26-03-2024
392	Isosorbide dinitrate	Tablet 10mg	1 Tablet	0.82	1547(E)	26-03-2024
393	Ispaghula	Granules/Husk/Powder	1 GM	0.96	1547(E)	26-03-2024
394	Itraconazole	Oral liquid 10mg/mL	1 ML	5.03	1547(E)	26-03-2024
395	Itraconazole	Capsule 100mg	1 Capsule	16.96	1547(E)	26-03-2024
396	Itraconazole	Capsule 200mg	1 Capsule	22.50	1547(E)	26-03-2024
397	IUD containing Copper	As licensed	1 IUD	285.91	1547(E)	26-03-2024
398	Ivermectin	Tablet 6 mg	1 Tablet	21.96	1547(E)	26-03-2024
399	Ivermectin	Tablet 12 mg	1 Tablet	38.02	1547(E)	26-03-2024
400	Japanese encephalitis vaccine	As licensed (4mcg to 6 mcg)	1 Vial	688.95	1547(E)	26-03-2024
401	Japanese encephalitis vaccine	As licensed (upto 3 mcg)	1 Vial	527.69	1547(E)	26-03-2024
402	Ketamine	Injection 50mg/mL	1 ML	12.33	1547(E)	26-03-2024
403	Labetalol	Injection 5mg/mL	1 ML	50.85	1547(E)	26-03-2024
404	Labetalol	Tablet 100 mg	1 Tablet	15.42	1547(E)	26-03-2024
405	Lactulose	Oral liquid 10 g/15mL	1 ML	1.25	1547(E)	26-03-2024
406	Lamivudine	Tablet 100mg	1 Tablet	11.26	3216(E)	08-08-2024
407	Lamivudine	Tablet 150mg	1 Tablet	11.05	1547(E)	26-03-2024
408	L-Asparaginase	Powder for Injection 5000 KU	1 Vial	1052.89	1547(E)	26-03-2024
409	L-Asparaginase	Powder for Injection 10000KU	1 Vial	1737.46	1547(E)	26-03-2024
410	Latanoprost	Drops 0.005%	1 ML	236.63	1547(E)	26-03-2024
411	Lenalidomide	Capsule 5mg	1 Capsule	68.42	1547(E)	26-03-2024
412	Lenalidomide	Capsule 25 mg	1 Capsule	297.37	1547(E)	26-03-2024
413	Letrozole	Tablet 2.5mg	1 Tablet	29.83	1547(E)	26-03-2024
414	Leuprolide acetate	Powder for injection 22.5 mg	1 Vial	17378.77	1547(E)	26-03-2024
415	Leuprolide acetate	Powder for injection 11.25mg	1 Vial	9456.23	1547(E)	26-03-2024
416	Leuprolide acetate	Powder for injection 3.75 mg	1 Vial	3166.84	1547(E)	26-03-2024

417	Levetiracetam	Tablet 250mg	1 Tablet	6.41	1547(E)	26-03-2024
418	Levetiracetam	Tablet 500mg	1 Tablet	13.21	1547(E)	26-03-2024
419	Levetiracetam	Modified Release Tablet 750mg	1 Tablet	18.62	1547(E)	26-03-2024
420	Levetiracetam	Tablet 750mg	1 Tablet	19.68	1547(E)	26-03-2024
421	Levetiracetam	Oral liquid 100 mg/mL (p)	1 ML	4.04	1547(E)	26-03-2024
422	Levetiracetam	Injection 100mg/mL	1 ML	23.42	1547(E)	26-03-2024
423	Levodopa (A) + Carbidopa (B)	Modified Release– Tablet 200mg (A) + 50mg (B)	1 Tablet	4.81	1547(E)	26-03-2024
424	Levodopa (A) +Carbidopa(B)	Tablet 100 mg (A) + 25 mg (B)	1 Tablet	2.62	1547(E)	26-03-2024
425	Levodopa (A) +Carbidopa(B)	Tablet 100 mg (A) + 10 mg (B)	1 Tablet	1.79	1547(E)	26-03-2024
426	Levodopa (A) +Carbidopa(B)	Tablet 250mg(A) +25mg(B)	1 Tablet	4.50	1547(E)	26-03-2024
427	Levodopa (A) +Carbidopa(B)	Modified Release– Tablet 100 mg (A) + 25 mg (B)	1 Tablet	2.84	1547(E)	26-03-2024
428	Levofloxacin	Tablet 750mg	1 Tablet	12.67	1547(E)	26-03-2024
429	Levofloxacin	Tablet 250mg	1 Tablet	4.90	1547(E)	26-03-2024
430	Levofloxacin	Tablet 500mg	1 Tablet	9.15	1547(E)	26-03-2024
431	Levonorgestrel	Tablet 1.5mg	1 Tablet	76.66	1547(E)	26-03-2024
432	Levothyroxine	Tablet 50mcg	1 Tablet	1.05	1547(E)	26-03-2024
433	Levothyroxine	Tablet 75mcg	1 Tablet	1.47	1547(E)	26-03-2024
434	Levothyroxine	Tablet 88 mcg	1 Tablet	1.68	1547(E)	26-03-2024
435	Levothyroxine	Tablet 112 mcg	1 Tablet	1.69	1547(E)	26-03-2024
436	Levothyroxine	Tablet 25 mcg	1 Tablet	1.48	1547(E)	26-03-2024
437	Levothyroxine	Tablet 62.5mcg	1 Tablet	1.64	1547(E)	26-03-2024
438	Levothyroxine	Tablet 12.5mcg	1 Tablet	1.51	1547(E)	26-03-2024
439	Levothyroxine	Tablet 100mcg	1 Tablet	1.34	1547(E)	26-03-2024
440	Levothyroxine	Tablet 125mcg	1 Tablet	1.72	1547(E)	26-03-2024
441	Levothyroxine	Tablet 150 mcg	1 Tablet	1.73	1547(E)	26-03-2024
442	Lignocaine	Topical forms 2-5 %	1 GM/ML	1.10	5498(E)	19-12-2024
443	Lignocaine	Injection 2%	1 ML	1.16	5498(E)	19-12-2024
444	Lignocaine	Injection 1%	1 ML	9.02	1547(E)	26-03-2024
445	Lignocaine	Injection 5% with 7.5% glucose	1 ML	3.56	1547(E)	26-03-2024
446	Lignocaine (A) +Adrenaline(B)	Injection2%(A)+1:200 000(5 mcg/mL)(B)	1 ML	1.07	1547(E)	26-03-2024
447	Linezolid	Tablet 600mg	1 Tablet	36.29	1547(E)	26-03-2024
448	Linezolid	Tablet 300 mg	1 Tablet	23.04	1547(E)	26-03-2024
449	Lithium	Tablet 300mg	1 Tablet	2.49	4498(E)	14-10-2024
450	Loperamide	Tablet 2mg	1 Tablet	2.32	1547(E)	26-03-2024

451	Loperamide	Capsule 2mg	1 Capsule	3.86	1547(E)	26-03-2024
452	Lopinavir (A) + Ritonavir(B)	Tablet 200 mg (A) + 50mg (B)	1 Tablet	48.80	1547(E)	26-03-2024
453	Lorazepam	Tablet 1 mg	1 Tablet	2.35	1547(E)	26-03-2024
454	Lorazepam	Tablet 2 mg	1 Tablet	2.86	1547(E)	26-03-2024
455	Lorazepam	Injection 2mg/mL	1 ML	8.24	1547(E)	26-03-2024
456	Magnesium sulphate	Injection 500mg/mL	1 ML	4.95	1547(E)	26-03-2024
457	Mannitol	Injection 20 %	1 ML	0.36	1547(E)	26-03-2024
458	Mannitol	Injection 10 %	1 ML	0.19	1547(E)	26-03-2024
459	Measles Rubella vaccine	As licensed	Each Vial of 0.5 ML	72.43	5497(E)	19-12-2024
460	Measles vaccine	As licensed	Each Vial of 0.5 ML	51.07	5497(E)	19-12-2024
461	Mebendazole	Tablet 100 mg	1 Tablet	2.95	1547(E)	26-03-2024
462	Mebendazole	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	0.85	1547(E)	26-03-2024
463	Medroxyprogesterone acetate	Tablet 10 mg	1 Tablet	6.36	1547(E)	26-03-2024
464	Medroxyprogesterone acetate	Injection 150mg/mL	1 ML	294.81	1547(E)	26-03-2024
465	Mefenamic acid	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	0.57	1547(E)	26-03-2024
466	Mefenamic acid	Tablet 250 mg	1 Tablet	2.15	1547(E)	26-03-2024
467	Mefloquine	Tablet 250 mg	1 Tablet	53.07	1547(E)	26-03-2024
468	Meglumine diatrizoate	Injection 60% w/v	1 ML	9.63	1547(E)	26-03-2024
469	Meglumine diatrizoate	Injection 76% w/v	1 ML	10.38	1547(E)	26-03-2024
470	Melphalan	Tablet 2 mg	1 Tablet	92.93	1547(E)	26-03-2024
471	Melphalan	Tablet 5 mg	1 Tablet	87.54	1547(E)	26-03-2024
472	Meropenem	Powder for Injection 500 mg (as trihydrate)	1 Vial	735.60	1547(E)	26-03-2024
473	Meropenem	Powder for Injection 1000mg (as trihydrate)	1 Vial	969.32	1547(E)	26-03-2024
474	Mesna	Injection 100mg/mL	1 ML	15.78	1547(E)	26-03-2024
475	Metformin	Tablet 1000mg	1 Tablet	3.55	1547(E)	26-03-2024
476	Metformin	Tablet 500mg	1 Tablet	2.06	1547(E)	26-03-2024
477	Metformin	Modified release Tablet 1000mg	1 Tablet	4.12	1547(E)	26-03-2024
478	Methotrexate	Tablet 10mg	1 tablet	13.52	1547(E)	26-03-2024
479	Methotrexate	Tablet 2.5mg	1 tablet	5.40	1547(E)	26-03-2024
480	Methotrexate	Tablet 5mg	1 Tablet	9.59	1547(E)	26-03-2024
481	Methylergometrine	Tablet 0.125mg	1 Tablet	9.10	1547(E)	26-03-2024
482	Methylergometrine	Injection 0.2mg/mL	1 ML	15.21	1547(E)	26-03-2024

483	Methylprednisolone	Injection 40mg/mL	1 ML	46.46	1547(E)	26-03-2024
484	Metoclopramide	Tablet 10mg	1 Tablet	1.37	1547(E)	26-03-2024
485	Metoclopramide	Injection 5mg/mL (Less than 10ML Pack)	1 ML	2.72	1547(E)	26-03-2024
486	Metoclopramide	Injection 5mg/mL (10 ML & More Pack)	1 ML	1.66	1547(E)	26-03-2024
487	Metoclopramide	Oral liquid 5mg/5mL(p)	1 ML	0.51	1547(E)	26-03-2024
488	Metoprolol	Tablet 25mg	1 Tablet	4.32	3216(E)	08-08-2024
489	Metoprolol	Tablet 50mg	1 Tablet	5.94	1547(E)	26-03-2024
490	Metoprolol	Modified Release Tablet 100 mg	1 Tablet	15.25	1547(E)	26-03-2024
491	Metoprolol	Tablet 100 mg	1 Tablet	11.32	1547(E)	26-03-2024
492	Metoprolol	Capsule 25mg	1 Capsule	4.21	1547(E)	26-03-2024
493	Metoprolol	Capsule 50mg	1 Capsule	5.92	1547(E)	26-03-2024
494	Metoprolol	Injection 1mg/ML	1 ML	3.46	1547(E)	26-03-2024
495	Metronidazole	Tablet 200mg	1 Tablet	0.83	1547(E)	26-03-2024
496	Metronidazole	Tablet 400mg	1 Tablet	1.55	1547(E)	26-03-2024
497	Metronidazole	Injection 500mg/100mL	1 ML	0.21	1547(E)	26-03-2024
498	Metronidazole	Oral liquid 200mg/5mL(p)	1 ML	0.53	1547(E)	26-03-2024
499	Midazolam	Nasal Spray 1.25mg/ actuation	1 ML	220.59	1547(E)	26-03-2024
500	Midazolam	Nasal Spray 0.5 mg/actuation	1 ML	81.32	1547(E)	26-03-2024
501	Midazolam	Injection 1mg/mL	1 ML	6.02	1547(E)	26-03-2024
502	Midazolam	Injection 5mg/mL	1 ML	11.07	1547(E)	26-03-2024
503	Mifepristone	Tablet 200mg	1 Tablet	357.03	1547(E)	26-03-2024
504	Misoprostol	Tablet 200mcg	1 Tablet	19.30	1547(E)	26-03-2024
505	Misoprostol	Tablet 100mcg	1 Tablet	10.09	1547(E)	26-03-2024
506	Montelukast	Tablet 4 mg	1 Tablet	10.41	3216(E)	08-08-2024
507	Montelukast	Tablet 10 mg	1 Tablet	16.73	1547(E)	26-03-2024
508	Montelukast	Tablet 5 mg (including chewable Tablets)	1 Tablet	12.22	1550(E)	26-03-2024
509	Morphine	Injection 10mg/mL	1 ML	19.94	1547(E)	26-03-2024
510	Morphine	Injection 15mg/mL	1 ML	15.19	1547(E)	26-03-2024
511	Moxifloxacin	Tablet 400mg	1 Tablet	26.27	1547(E)	26-03-2024
512	Mupirocin	Ointment 2%	1 GM	20.64	1547(E)	26-03-2024
513	Mycophenolate mofetil	Tablet 250mg	1 Tablet	50.46	1547(E)	26-03-2024
514	Mycophenolate mofetil	Tablet 500mg	1 Tablet	75.89	1550(E)	26-03-2024
515	N-acetylcysteine	Injection 200 mg/mL	1 ML	24.05	1547(E)	26-03-2024

516	Naloxone	Injection 0.4mg/mL	1 ML	94.34	1547(E)	26-03-2024
517	Natamycin	Drops 5%	1 ML	23.79	1547(E)	26-03-2024
518	Neostigmine	Injection 0.5mg/mL	1 ML	5.10	1547(E)	26-03-2024
519	Neostigmine	Tablet 15mg	1 Tablet	4.67	1547(E)	26-03-2024
520	Nevirapine	Tablet 200 mg	1 Tablet	16.07	1547(E)	26-03-2024
521	Nicotine (for nicotine replacement therapy)	Lozenge 2mg	1 Lozenges	8.06	1547(E)	26-03-2024
522	Nicotine (for nicotine replacement therapy)	Gum 2 mg	1 Gum	8.74	1547(E)	26-03-2024
523	Nicotine (for nicotine replacement therapy)	Gum 4 mg	1 Gum	10.83	1547(E)	26-03-2024
524	Nicotine (for nicotine replacement therapy)	Lozenge 4mg	1 Lozenges	9.92	1547(E)	26-03-2024
525	Nicotine (for nicotine replacement therapy)	Oral Dosage forms 2mg Pastille	1 Pastille	7.24	1547(E)	26-03-2024
526	Nicotine (for nicotine replacement therapy)	Oral Dosage forms 4mg Pastille	1 Pastille	7.97	1547(E)	26-03-2024
527	Nifedipine	Tablet 10mg	1 Tablet	1.57	1547(E)	26-03-2024
528	Nifedipine	Capsule 10mg	1 Capsule	0.97	1547(E)	26-03-2024
529	Nitrofurantoin	Tablet 100 mg	1 Tablet	8.25	1547(E)	26-03-2024
530	Nitrofurantoin	Capsule 100 mg	1 Capsule	8.79	1547(E)	26-03-2024
531	Nitrofurantoin	Oral liquid 25mg/5mL(p)	1 ML	0.91	1547(E)	26-03-2024
532	Nitrous oxide	As licensed for medical purpose	1 Cubic Meter	290.96	1547(E)	26-03-2024
533	Noradrenaline	Injection 2mg/mL	1 ML	20.52	1547(E)	26-03-2024
534	Norethisterone	Tablet 5mg	1 Tablet	5.48	1547(E)	26-03-2024
535	Omeprazole	Capsule 20 mg	1 Capsule	2.92	1547(E)	26-03-2024
536	Omeprazole	Tablet 20 mg	1 Tablet	4.42	1547(E)	26-03-2024
537	Omeprazole	Capsule 10 mg	1 Capsule	2.45	1547(E)	26-03-2024
538	Omeprazole	Powder for oral liquid 20mg	1 GM	1.54	1547(E)	26-03-2024
539	Omeprazole	Tablet 40 mg	1 Tablet	8.60	1547(E)	26-03-2024
540	Omeprazole	Capsule 40 mg	1 Capsule	5.77	1547(E)	26-03-2024
541	Ondansetron	Tablet 4 mg	1 Tablet	5.23	1547(E)	26-03-2024
542	Ondansetron	Oral liquid 2mg/5mL(p)	1 ML	1.28	1547(E)	26-03-2024
543	Ondansetron	Injection 2mg/mL	1 ML	6.06	1547(E)	26-03-2024
544	Ondansetron	Tablet 8 mg	1 Tablet	9.22	1547(E)	26-03-2024
545	Oral rehydration salts	As licensed	1 ML	0.15	1547(E)	26-03-2024

546	Oral Rehydration Salts	As Licensed	1 GM	1.01	1992(E)	15-05-2024
547	Ormeloxifene (Centchroman)	Tablet 30mg	1 Tablet	8.59	1547(E)	26-03-2024
548	Oxaliplatin	Injection 5 mg/mL in 10 mL vial	1 Vial	2272.83	1547(E)	26-03-2024
549	Oxaliplatin	Injection 100mg(as licensed)	1 Vial	5066.34	1992(E)	15-05-2024
550	Oxygen – Liquid Medical Oxygen	As licensed for medical purpose	1 Cubic Meter	17.32	1547(E)	26-03-2024
551	Oxygen (in cylinder)	As licensed for medical purpose	1 Cubic Meter	29.33	1547(E)	26-03-2024
552	Oxytocin	Injection 5 IU/mL	1 ML	18.15	1547(E)	26-03-2024
553	Oxytocin	Injection 10IU/mL	1 ML	40.56	1547(E)	26-03-2024
554	Paclitaxel	Injection 30 mg/5 mL, injection 100 mg/16.7 ml	1 ML	219.19	1547(E)	26-03-2024
555	Pantoprazole	Injection 40 mg	1 Vial	51.33	1547(E)	26-03-2024
556	Paracetamol	Tablet 650mg	1 Tablet	2.04	1547(E)	26-03-2024
557	Paracetamol	Oral Liquid 125 mg/5 mL (p)	1 ML	0.38	1547(E)	26-03-2024
558	Paracetamol	Oral Liquid 250 mg/5 mL (p)	1 ML	0.68	1547(E)	26-03-2024
559	Paracetamol	Oral liquid 120 mg/5 mL (p)	1 ML	0.62	1547(E)	26-03-2024
560	Paracetamol	Tablet 500mg	1 Tablet	0.92	1547(E)	26-03-2024
561	Paracetamol	Suppository 80mg	1 Suppository	6.78	1547(E)	26-03-2024
562	Paracetamol	Suppository 170mg	1 Suppository	8.09	1547(E)	26-03-2024
563	Paracetamol	Injection 150mg/mL (2ML)	1 ML	4.04	1547(E)	26-03-2024
564	Paracetamol	Injection 150mg/mL (100 ML)	1 ML	1.63	1547(E)	26-03-2024
565	Permethrin	Cream 5%	1 GM	1.88	1547(E)	26-03-2024
566	Permethrin	Lotion 1%	1 ML	1.02	1547(E)	26-03-2024
567	Permethrin	Cream 1%	1 GM	1.53	1547(E)	26-03-2024
568	Permethrin	Lotion 5%	1 ML/GM	1.02	1547(E)	26-03-2024
569	Permethrin	Gel 5%	1 GM	1.33	1547(E)	26-03-2024
570	Pheniramine	Injection 22.75mg/mL (2ml)	1 ML	2.81	1547(E)	26-03-2024
571	Pheniramine	Injection 22.75mg/mL (10ml)	1 ML	2.10	1547(E)	26-03-2024
572	Phenobarbitone	Tablet 30mg	1 Tablet	1.33	1547(E)	26-03-2024
573	Phenobarbitone	Tablet 60mg	1 Tablet	1.92	1547(E)	26-03-2024
574	Phenobarbitone	Injection 200mg/mL	1 ML	22.53	1547(E)	26-03-2024
575	Phenobarbitone	Oral liquid 20mg/5mL	1 ML	0.50	1547(E)	26-03-2024

		(p)				
576	Phenytoin	Tablet 300mg	1 Tablet	5.58	1547(E)	26-03-2024
577	Phenytoin	Injection 50mg/mL	1 ML	6.05	1547(E)	26-03-2024
578	Phenytoin	Modified Release Tablet 300mg	1 Tablet	6.68	1547(E)	26-03-2024
579	Phenytoin	Tablet 100mg	1 Tablet	1.79	1547(E)	26-03-2024
580	Phenytoin	Tablet 50mg	1 Tablet	0.85	1547(E)	26-03-2024
581	Phenytoin	Oral liquid 30mg/5 mL(p)	1 ML	0.36	1547(E)	26-03-2024
582	Phenytoin	Oral liquid 125mg/5mL(p)	1 ML	1.12	1547(E)	26-03-2024
583	Phenytoin	Capsule 300mg	1 Capsule	4.73	1547(E)	26-03-2024
584	Phenytoin	Capsule 100mg	1 Capsule	1.86	1547(E)	26-03-2024
585	Phytomenadione (Vitamin K1)	Injection 10mg/mL	1 ML	54.01	1547(E)	26-03-2024
586	Phytomenadione (Vitamin K1)	Tablet 10mg	1 Tablet	14.79	1547(E)	26-03-2024
587	Pilocarpine	Drops 2 %	1 ML	16.53	4498(E)	14-10-2024
588	Piperacillin (A) +Tazobactam(B)	Powder for Injection 1000mg(A)+125mg(B)	1 Vial	101.39	1547(E)	26-03-2024
589	Piperacillin (A) +Tazobactam(B)	Powder for Injection 2000mg(A)+250mg(B)	1 Vial	194.88	1547(E)	26-03-2024
590	Piperacillin (A) +Tazobactam(B)	Powder for Injection 4000mg(A)+500mg(B)	1 Vial	406.36	1547(E)	26-03-2024
591	Potassium chloride	Oral liquid 500mg/5mL	1 ML	0.31	1547(E)	26-03-2024
592	Potassium chloride	Injection 150mg/mL	1 ML	2.44	1547(E)	26-03-2024
593	Povidone iodine	Solution 5%	1 ML	0.45	1547(E)	26-03-2024
594	Povidone iodine	Solution 7.5%	1 ML	0.83	1547(E)	26-03-2024
595	Povidone iodine	Solution 10%	1 ML	0.98	1547(E)	26-03-2024
596	Povidone iodine	Solution 4%	1 ML	1.77	1547(E)	26-03-2024
597	Pralidoxime chloride (2-PAM)	Injection 25mg/mL	1 ML	4.64	1547(E)	26-03-2024
598	Prednisolone	Tablet 40mg	1 Tablet	3.47	1547(E)	26-03-2024
599	Prednisolone	Oral liquid 5mg/5mL(p)	1 ML	0.50	1547(E)	26-03-2024
600	Prednisolone	Oral liquid 15mg/5mL(p)	1 ML	0.87	1547(E)	26-03-2024
601	Prednisolone	Tablet 10mg	1 Tablet	1.22	1547(E)	26-03-2024
602	Prednisolone	Tablet 5mg	1 Tablet	0.69	1547(E)	26-03-2024
603	Prednisolone	Tablet 20mg	1 Tablet	2.44	1547(E)	26-03-2024
604	Prednisolone	Drops 1%	1 ML	5.86	1547(E)	26-03-2024
605	Premix Insulin 30:70 Injection	Injection 40 IU /ml	1 ml	17.29	1547(E)	26-03-2024

	(Regular:NPH)					
606	Primaquine	Tablet 7.5mg	1 Tablet	2.42	1547(E)	26-03-2024
607	Primaquine	Tablet 15mg	1 Tablet	5.23	1547(E)	26-03-2024
608	Primaquine	Tablet 2.5mg	1 Tablet	1.78	1547(E)	26-03-2024
609	Proparacaine	Eye Drops0.5%	1 ML	10.43	1547(E)	26-03-2024
610	Propofol	Injection 10mg/mL	1 ML	6.61	1547(E)	26-03-2024
611	Propranolol	Tablet 40mg	1 Tablet	3.28	1547(E)	26-03-2024
612	Propranolol	Tablet 10mg	1 Tablet	1.33	1547(E)	26-03-2024
613	Propranolol	Tablet 20mg	1 Tablet	3.26	1547(E)	26-03-2024
614	Propranolol	Capsule 40mg	1 Capsule	4.32	1547(E)	26-03-2024
615	Propranolol	Capsule 20 mg	1 Capsule	2.39	1547(E)	26-03-2024
616	Propranolol	Capsule 10 mg	1 Capsule	2.03	1547(E)	26-03-2024
617	Protamine Sulphate	Injection 10mg/mL	1 ML	9.95	1547(E)	26-03-2024
618	Pyrazinamide	Tablet 1000mg	1 Tablet	10.71	1547(E)	26-03-2024
619	Pyrazinamide	Tablet 500mg	1 Tablet	4.98	1547(E)	26-03-2024
620	Pyrazinamide	Tablet 750mg	1 Tablet	7.34	1547(E)	26-03-2024
621	Pyrazinamide	Tablet 1500mg	1 Tablet	12.02	1547(E)	26-03-2024
622	Pyridoxine	Tablet 100 mg	1 Tablet	6.08	1547(E)	26-03-2024
623	Pyridoxine	Tablet 10mg	1 Tablet	0.11	1547(E)	26-03-2024
624	Quinine	Tablet 300 mg	1 Tablet	5.75	1547(E)	26-03-2024
625	Quinine	Injection 300 mg/mL	1 ML	9.67	1547(E)	26-03-2024
626	Rabies vaccine	As licensed	1 Vial	385.30	1547(E)	26-03-2024
627	Raltegravir	Tablet 400mg	1 Tablet	150.37	1547(E)	26-03-2024
628	Ramipril	Tablet 2.5 mg	1 Tablet	5.30	1547(E)	26-03-2024
629	Ramipril	Tablet 5mg	1 Tablet	8.32	1547(E)	26-03-2024
630	Ramipril	Capsule 2.5mg	1 Capsule	4.74	1547(E)	26-03-2024
631	Ramipril	Capsule 5mg	1 Capsule	7.32	1547(E)	26-03-2024
632	Ribavirin	Capsule 200 mg	1 Capsule	26.95	1547(E)	26-03-2024
633	Rifampicin	Capsule 600mg	1 Capsule	11.56	1547(E)	26-03-2024
634	Rifampicin	Capsule 450mg	1 Capsule	5.77	1547(E)	26-03-2024
635	Rifampicin	Capsule 150mg	1 Capsule	2.33	1547(E)	26-03-2024
636	Rifampicin	Capsule 300mg	1 Capsule	4.69	1547(E)	26-03-2024
637	Rifampicin	Oral liquid 100mg/5mL(p)	1 ML	0.48	1547(E)	26-03-2024
638	Risperidone	Tablet 1 mg	1 Tablet	3.08	1547(E)	26-03-2024
639	Risperidone	Tablet 2 mg	1 Tablet	4.56	1547(E)	26-03-2024
640	Risperidone	Tablet 4 mg	1 Tablet	7.49	1547(E)	26-03-2024
641	Risperidone	Oral liquid 1mg/mL	1 ML	2.25	1547(E)	26-03-2024
642	Risperidone	Injection (Long acting) 25mg	1 ML	1963.89	1547(E)	26-03-2024
643	Risperidone	Injection (Long acting) 37.5 mg	1 ML	2695.52	1547(E)	26-03-2024

644	Ritonavir	Tablet 100mg	1 Tablet	29.72	1547(E)	26-03-2024
645	Rituximab	Injection 10mg/mL	1 ML	775.07	1547(E)	26-03-2024
646	Rota virus vaccine	As licensed	1 Vial	869.45	1547(E)	26-03-2024
647	Salbutamol	Tablet 4 mg	1 Tablet	0.33	4498(E)	14-10-2024
648	Salbutamol	Tablet 2 mg	1 Tablet	0.27	4498(E)	14-10-2024
649	Salbutamol	Oral liquid 2mg/5mL	1 ML	0.18	1547(E)	26-03-2024
650	Salbutamol	Inhalation (MDI/DPI) 100mcg/dose	1 Dose	0.50	1547(E)	26-03-2024
651	Salbutamol	Respirator Solution (Solution for Nebulizer 5mg/mL)	1 ML	1.04	4498(E)	14-10-2024
652	Salicylic acid	Ointment 6%	1 GM	2.06	1547(E)	26-03-2024
653	Salicylic acid	Ointment 3%	1 GM	2.10	1547(E)	26-03-2024
654	Sevoflurane	Liquid for inhalation	1 ML	31.71	1547(E)	26-03-2024
655	Snake venom antiserum	Lyophilized polyvalent - As Licensed	1 Vial of 10 ML	676.84	1547(E)	26-03-2024
656	Snake Venom Antiserum	Soluble/ Liquid Polyvalent - As Licensed	1 Vial of 10 ML	436.13	1547(E)	26-03-2024
657	Sodium bicarbonate	Injection (as per IP) - 8.4%	1 ML	1.37	1547(E)	26-03-2024
658	Sodium bicarbonate	Injection (as per IP) - 7.5%	1 ML	1.03	1547(E)	26-03-2024
659	Sodium Valproate	Tablet 300mg	1 Tablet	4.54	1547(E)	26-03-2024
660	Sodium Valproate	Oral liquid 200mg/5mL(p)	1 ML	0.66	1547(E)	26-03-2024
661	Sodium Valproate	Tablet 200mg	1 Tablet	3.65	1547(E)	26-03-2024
662	Sodium Valproate	Modified Release – Tablet 500mg	1 Tablet	9.44	1547(E)	26-03-2024
663	Sodium Valproate	Tablet 500mg	1 Tablet	8.26	1547(E)	26-03-2024
664	Sodium Valproate	Modified Release – Tablet 300mg	1 Tablet	6.21	1547(E)	26-03-2024
665	Sodium Valproate	Injection 100mg/mL	1 ML	6.87	1547(E)	26-03-2024
666	Sofosbuvir	Tablet 400mg	1 Tablet	534.26	1547(E)	26-03-2024
667	Somatostatin	Powder for Injection 3mg	1 Vial	1382.65	1547(E)	26-03-2024
668	Spironolactone	Tablet 50mg	1 Tablet	4.45	1547(E)	26-03-2024
669	Spironolactone	Tablet 25mg	1 Tablet	2.23	1547(E)	26-03-2024
670	Streptokinase	Injection 15,00,000IU	1 Vial	1910.00	1547(E)	26-03-2024
671	Streptomycin	Powder for Injection 750 mg	1 Vial	15.41	4498(E)	14-10-2024
672	Streptomycin	Powder for Injection 1000mg	1 Vial	16.57	4498(E)	14-10-2024
673	Succinylcholine	Injection 50mg/mL	1 ML	5.30	1547(E)	26-03-2024
674	Sulfasalazine	Tablet 500 mg	1 Tablet	4.80	1547(E)	26-03-2024

675	Sumatriptan	Tablet 25mg	1 Tablet	33.07	1547(E)	26-03-2024
676	Sumatriptan	Tablet 50mg	1 Tablet	56.65	1547(E)	26-03-2024
677	Tacrolimus	Capsule 0.5mg	1 Capsule	21.02	1547(E)	26-03-2024
678	Tacrolimus	Capsule 1mg	1 Capsule	41.33	1547(E)	26-03-2024
679	Tacrolimus	Capsule 2mg	1 Capsule	85.81	1547(E)	26-03-2024
680	Tacrolimus	Tablet 1mg	1 Tablet	40.68	1547(E)	26-03-2024
681	Tacrolimus	Tablet 2mg	1 Tablet	79.04	1547(E)	26-03-2024
682	Tacrolimus	Tablet 0.5mg	1 Tablet	21.33	1547(E)	26-03-2024
683	Tamoxifen	Tablet 20mg	1 Tablet	3.00	1547(E)	26-03-2024
684	Tamoxifen	Tablet 10mg	1 Tablet	2.25	1547(E)	26-03-2024
685	Telmisartan	Tablet 20mg	1 Tablet	3.95	1547(E)	26-03-2024
686	Telmisartan	Tablet 40mg	1 Tablet	6.88	1547(E)	26-03-2024
687	Telmisartan	Tablet 80mg	1 Tablet	10.58	1547(E)	26-03-2024
688	Temozolomide	Capsule 20 mg	1 Capsule	449.01	1547(E)	26-03-2024
689	Temozolomide	Capsule 250mg	1 Capsule	4378.91	1547(E)	26-03-2024
690	Temozolomide	Capsule 100mg	1 Capsule	1534.96	1547(E)	26-03-2024
691	Temozolomide	Tablet 20 mg	1 Tablet	342.51	1547(E)	26-03-2024
692	Temozolomide	Tablet 250 mg	1 Tablet	3823.55	1547(E)	26-03-2024
693	Tenecteplase	Injection 40mg/vial	1 Vial	51266.61	1547(E)	26-03-2024
694	Tenecteplase	Injection 30mg/vial	1 Vial	37552.36	1547(E)	26-03-2024
695	Teneligliptin	Tablet 20mg	1 Tablet	11.28	1547(E)	26-03-2024
696	Tenofovir Alafenamide Fumarate (TAF)	Tablet 25mg	1 Tablet	49.72	1547(E)	26-03-2024
697	Tenofovir Disproxil Fumarate (A) + Lamivudine (B)	Tablet 300mg (A) + 300mg(B)	1 Tablet	46.37	1547(E)	26-03-2024
698	Tenofovir Disproxil Fumarate (A) + Lamivudine (B) + Efavirenz(C)	Tablet 300mg(A)+ 300mg (B) + 600mg(C)	1 Tablet	104.64	1547(E)	26-03-2024
699	Tenofovir Disproxil Fumarate (TDF)	Tablet 300mg	1 Tablet	46.64	1547(E)	26-03-2024
700	Tenofovir Disproxil Fumarate + Lamivudine + Dolutegravir	Tablet 300mg + 300mg + 50 mg	1 Tablet	116.99	1547(E)	26-03-2024
701	Terbinafine	Cream 1%	1 GM	5.35	1547(E)	26-03-2024
702	Tetanus toxoid	As licensed (5ml)	1 Vial	25.97	1547(E)	26-03-2024
703	Tetanus toxoid	As licensed (0.5ml)	1 Vial (0.5ML)	12.69	1547(E)	26-03-2024
704	Thalidomide	Capsule 50 mg	1 Capsule	31.70	1547(E)	26-03-2024
705	Thalidomide	Capsule 100mg	1 Capsule	63.09	1547(E)	26-03-2024
706	Thiamine	Tablet 100 mg	1 Tablet	4.54	1547(E)	26-03-2024
707	Thiamine	Injection 100 mg/mL	1 ML	27.16	5498(E)	19-12-2024

708	Thiopentone	Powder for injection 1g	1 Vial	56.28	1547(E)	26-03-2024
709	Thiopentone	Powder for injection 0.5g	1 Vial	46.49	1547(E)	26-03-2024
710	Timolol	Drops 0.5 %	1 ML	13.63	1547(E)	26-03-2024
711	Tiotropium	Inhalation (MDI) 9 mcg/dose	1 Metered Dose	2.83	1547(E)	26-03-2024
712	Tiotropium	Inhalation (DPI) 18mcg/dose	1 Dose	10.90	1547(E)	26-03-2024
713	Tramadol	Injection 50mg/mL (upto 2ml pack)	1 ML	11.99	1547(E)	26-03-2024
714	Tramadol	Capsule 50mg	1 Capsule	4.90	1547(E)	26-03-2024
715	Tramadol	Capsule 100mg	1 Capsule	9.20	1547(E)	26-03-2024
716	Tramadol	Tablet 50mg	1 Tablet	9.87	1547(E)	26-03-2024
717	Tramadol	Tablet 100mg	1 Tablet	24.91	1547(E)	26-03-2024
718	Tranexamic acid	Injection 100 mg/mL	1 ML	13.95	1547(E)	26-03-2024
719	Tranexamic acid	Tablet 500 mg	1 Tablet	18.86	1547(E)	26-03-2024
720	Trastuzumab	Injection 440mg/50mL	1 Vial	55677.58	1547(E)	26-03-2024
721	Trihexyphenidyl	Tablet 2mg	1 Tablet	1.39	1547(E)	26-03-2024
722	Tropicamide	Eye drop 1 %	1 ML	9.59	1547(E)	26-03-2024
723	Valganciclovir	Tablet 450 mg	1 Tablet	415.38	3216(E)	08-08-2024
724	Vancomycin	Powder for Injection 500 mg	1 Vial	323.17	1547(E)	26-03-2024
725	Vancomycin	Powder for Injection 1000mg	1 Vial	478.45	1547(E)	26-03-2024
726	Vancomycin	Powder for Injection 250 mg	1 Vial	255.62	1547(E)	26-03-2024
727	Vancomycin	Capsule 250 mg	1 Capsule	155.04	1547(E)	26-03-2024
728	Vecuronium	Powder for injection 10mg	1 Vial	119.41	1547(E)	26-03-2024
729	Vecuronium	Powder for injection 4 mg	1 Vial	75.69	1547(E)	26-03-2024
730	Verapamil	Tablet 80 mg	1 Tablet	1.62	1547(E)	26-03-2024
731	Verapamil	Tablet 40mg	1 Tablet	0.87	1547(E)	26-03-2024
732	Vincristine	Injection 1mg/mL	1 ML	58.52	1547(E)	26-03-2024
733	Vitamin A	Tablet 50000IU (including Chewable Tablet)	1 Tablet	0.74	1547(E)	26-03-2024
734	Vitamin A	Injection 50000IU/mL	1 ML	2.30	1547(E)	26-03-2024
735	Warfarin	Tablet 5 mg	1 Tablet	2.44	1547(E)	26-03-2024
736	Warfarin	Tablet 3 mg	1 Tablet	3.24	1547(E)	26-03-2024
737	Warfarin	Tablet 2 mg	1 Tablet	2.77	1547(E)	26-03-2024
738	Warfarin	Tablet 1 mg	1 Tablet	2.50	1547(E)	26-03-2024
739	Water for injection	Injection	Each Pack (10 ML)	2.46	5497(E)	19-12-2024

740	Xylometazoline	Nasal drops 0.05 %	1 ML	4.26	1547(E)	26-03-2024
741	Xylometazoline	Nasal drops 0.1%	1 ML	5.21	1547(E)	26-03-2024
742	Zidovudine	Tablet 300 mg	1 Tablet	13.83	1547(E)	26-03-2024
743	Zidovudine (A) +Lamivudine (B) +Nevirapine(C)	Tablet 300mg(A)+150mg(B) +200mg (c)	1 Tablet	21.50	1547(E)	26-03-2024
744	Zidovudine (A) +Lamivudine(B)	Tablet 300mg(A)+150mg(B)	1 Tablet	21.46	1547(E)	26-03-2024
745	Zinc Sulphate	Dispersible Tablet 20mg	1 Tablet	3.47	1547(E)	26-03-2024
746	Zoledronic acid	Powder for Injection 4mg	1 Vial	2433.68	1547(E)	26-03-2024
747	Zolpidem	Tablet 5mg	1 Tablet	6.32	1547(E)	26-03-2024
748	Zolpidem	Tablet 10mg	1 Tablet	8.66	1547(E)	26-03-2024

Notes: -

- (a) The ceiling prices are applicable with effect from 1.4.2025 (ceiling prices are inclusive of Wholesale Price Index (WPI) @ 1.74028% for the year 2024 over 2023).
- (b) In respect of formulation where pack wise ceiling price is notified, for any other pack size manufactured, the manufacturer shall approach NPPA under para 11(3) of DPCO, 2013 for specific price approval for its formulations.
- (c) In respect of any other scheduled formulation, for which ceiling price is not mentioned above, the manufacturer shall approach NPPA for specific price approval for its formulations.
- (d) All manufacturers of scheduled formulations, selling branded or generic or both the versions of scheduled formulations at price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus Goods and Services Taxes as applicable, if any.
- (e) All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price notified vide S.O. & date as specified in column 6 (a) & 6 (b) in the above table (plus Goods and Services Taxes as applicable, if any), may revise the existing MRP of their formulations, on the basis of WPI @ 1.74028% for year 2024 over 2023 in accordance with paragraph 16(2) of DPCO, 2013.
- (f) The manufacturers may add Goods and Services Taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (g) The formulation of Sodium Valproate includes combination of Sodium Valproate and Valproic Acid both together corresponding to Sodium Valproate of the stated strength.
- (h) The ceiling prices fixed for Enoxaparin Injection 40mg/0.4ml and 60 mg/0.6 ml at S.N. 280 are also applicable to any other strengths (such as 300mg/3ml, 80mg/0.8ml, 20mg/0.2ml etc.) of the Enoxaparin with same ratio i.e.10mg/0.1ml.
- (i) The ceiling prices fixed for Paclitaxel Injection 30 mg/5 mL and 100mg/16.7 ml at S.N. 554 are also applicable to any other strengths (300mg/50ml, 260mg/43.4ml, 250mg/41.7ml, 200mg/33.4ml etc.) of the Paclitaxel with same ratio i.e. 6mg/ml.
- (j) The ceiling prices fixed for Budesonide Respirator solution for use in nebulizer 0.5mg/mL and Budesonide Respirator solution for use in nebulizer 1mg/mL (mentioned at S.N. 104 and 105) are also applicable to 2ml respules of 0.5mg and 2ml respules of 1mg by applying 2 times of the ceiling prices of 1 ml respules of 0.5 mg and 1 mg respectively.
- (k) Information about the revision, if carried out, shall be forwarded to the Government in either electronic or physical form in Form-II within a period of fifteen days of such revision and non-submission of information under this sub-paragraph shall be construed as non-revision of maximum retail price (MRP) and the

concerned manufacturer shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised maximum retail price (MRP), alongwith interest thereon from the date of overcharging.

- (l) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (m) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (n) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (1) (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (o) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (p) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (q) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/263/131/2025/F F. No. 8(131)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director(Prising)